

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16—सितम्बर 22, 2017 (भाद्रपद 25, 1939)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16—SEPTEMBER 22, 2017 (BHADRA 25, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2017

सेना शाखा

सं. 179, दिनांक 7 जुलाई 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै. बनाया जाता है

अंकित सचान

टीए - 42965 (इन्जीनियर टीए)

19 जनवरी 2015

दीपक कुमार नायक

टीए - 43065 (इन्जीनियर टीए)

16 सितम्बर 2016

पबीत्र कुमार नायक

टीए - 43066 (इन्जीनियर टीए)

02 जनवरी 2017

सतिश चन्द्र प्रसाद

टीए - 43067 (इन्जीनियर टीए)

09 जनवरी 2017

माधवेन्द्र प्रताप सिंह

अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 180, दिनांक 10 जुलाई 2017—राष्ट्रपति वायु सेना आदेश 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत 132 जी डी ओ सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
पूर्व-फ्लाइट कैडेट के रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर पंकज शर्मा (33241), अनिरुद्ध श्रीवास्तव (33258), 22 जून 13 से प्रभावी

राष्ट्रपति सहर्ष 14 एस ई सी (टेक) के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं। इन्हें 06 जुलाई 2012 से पूर्व दिनांकित स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

भारतीय वायुसेना
वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर अजय कुमार सिंह (33841) 06 जनवरी 2014 से प्रभावी

06 जुलाई 2012 से पूर्व दिनांकित

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के तहत 191 पायलट कोर्स के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) तथा विंग्स प्रदान करते हैं। यह अफसर स्थायी कमीशन तथा विंग्स प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 22 जून 13 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे :—

भारतीय वायु सेना
उड़ान (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर अभिषेक गौरव (33162), आशुतोष पांडे (33170), सिंह मनदीप (33182), जितेन्द्र कुमार (33194), आलोक कुमार मिश्रा (33197), विपुल गुप्ता (33205), मोहित रावत (33206), हिमांशु राज सिंह (33210), सिंह अंकुर (33215), शेख नईम उर रहमान (33221), 22 जून 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 2001 के पत्र संख्या वा से मु 24745/4/ पी ओ (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी (वायु-III) के प्रावधानों के तहत 55 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिकी)

फ्लाईंग अफसर सचिन सदानंद बोर्कर (33389), जसलीन कौर (33398), निवेदिता डोगरा (33401) : 01 जुलाई 13 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर स्वाति (33454) : 08 जुलाई 13 से प्रभावी।

वैमानिकी इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स)

फ्लाईंग अफसर एम मंजुशा (33402), मीनाक्षी कुमारी (33417), मीनाक्षी मलिक (33447) : 01 जुलाई 13 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर उत्सव शर्मा (33453), अपूर्वा शर्मा (33456) : 08 जुलाई 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के तहत 83 ए ई सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अल्पकालीन सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाईंग अफसर प्रणव विनोद सुरेश (33374), वैभव गुप्ता (33378) 01 जुलाई 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, शुद्धिपत्र 10/84 के द्वारा वा से आ 59/98 तथा वा से अनुदेश 2/73 के प्रावधानों के तहत 83 ए ई सी के निम्नलिखित अफसरों की अल्पकालीन सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) समाप्त करते हैं तथा उनको उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाईंग अफसर अजय मोहन (32979), मिलिन्द गर्ग (33017), गौरव सिंह बंडाल (33022), निरनीत चनोरिया (33028), प्रणव विनोद सुरेश (33374), वैभव गुप्ता (33378), 30 जून 14 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 2001 के पत्र संख्या वा से मु 24745/4/ पी ओ (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी (वायु-III) के प्रावधानों के तहत 55 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों की अस्थायी अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनको उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अल्पकालीन सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिकी)

फ्लाईंग अफसर सचिन सदानंद बोर्कर (33389), जसलीन कौर (33398), निवेदिता डोगरा (33401), स्वाति (33454) : 30 जून 14 से प्रभावी।

वैमानिकी इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स)

फ्लाईंग अफसर मैटे मंजुशा (33402), मीनाक्षी कुमारी (33417), मीनाक्षी मलिक (33447) उत्सव शर्मा (33453), अपूर्वा शर्मा (33456) : 30 जून 14 से प्रभावी।

प्र स सुरंगे
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3 (डी)
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर-3 (डी)

वायु शाखा

सं. 181, दिनांक 11 जुलाई 2017—राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 01 के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु-III) के प्रावधानों के अंतर्गत 41 एस एस सी (डब्ल्यू) जी डी ओ सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
पूर्व-फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर सोनिका पटानिया (33311), पुष्पांजलि (33320), हिमानी दहिया (33321), 22 जून 13 से प्रभावी

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 19 अक्टूबर 82 के पत्र संख्या वा से मु 22258/1/ पी ओ 3 (ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (वायु-III) के प्रावधानों के तहत 83 ए ई सी (यू ई एस - 2013) के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

फ्लाईंग अफसर इजराइल स्टीफन उलागनाथन (33329), के मुथामिल सेल्वान (33330), लोकेश मेहलान (33331), माइकल मेरीदास (33332), सुमित सिंह सिधु (33333), सैयद सलमान एन एच (33334), विवेक गोपाल (33335) : 01 जुलाई 13 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर श्याम सुंदर प्रभु सदानंदन (33448), मिथुन हरिलाल (33449) : 08 जुलाई 13 से प्रभावी।

वैमानिकी इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाईंग अफसर अभिषेक कुमार सिंह (33342), आकाश कश्यप (33343), अर्णब मुखर्जी (33344), आर्यन राज चौधरी (33345), ब्रिजेश कुमार गुप्ता (33346), जैरी के सिबि (33347), कांदला प्रवीन रेड्डी (33348), कौशटभ गांगुली (33349), मोहम्मद सफीज रहमान (33350), पल्लव गुप्ता (33351), प्रफुल्ल गुप्ता (33352), प्रांतीक गूहा (33353), प्रतीक दत्ता (33354), रॉयचौधरी अभिषेक (33355), साकेत झा (33356), समृद्ध प्रभाकर (33357), सत्येन्द्र शॉ (33358), श्रीराज (33359), सौरभ दुग्गल (33360), विकास कुमार (33361), विवेका कामथ कुंदपुरा (33362) : 01 जुलाई 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 19 अक्टूबर 82 के पत्र संख्या वा से मु 22258/1/ पी ओ 3 (ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (वायु-III) के प्रावधानों के तहत 83 ए ई सी (यू ई एस - 2013) के निम्नलिखित अफसरों की अस्थायी अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनको, उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

फ्लाईंग अफसर इजराइल स्टीफन उलागनाथन (33329), के मुथामिल सेल्वान (33330), लोकेश मेहलान (33331), माइकल मेरीदास (33332), सुमित सिंह सिधु (33333), सैयद सलमान एन एच (33334), विवेक गोपाल (33335), श्याम सुंदर प्रभु सदानंदन (33448), मिथुन हरिलाल (33449) : 30 जून 14 से प्रभावी।

वैमानिकी इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाईंग अफसर निशान तिवारी (32974), अभिषेक कुमार सिंह (33342), आकाश कश्यप (33343), अर्णब मुखर्जी (33344), आर्यन राज चौधरी (33345), ब्रिजेश कुमार गुप्ता (33346), जैरी के सिबि (33347), कांदला प्रवीन रेड्डी (33348), कौशटभ गांगुली (33349), मोहम्मद सफीज रहमान (33350), पल्लव गुप्ता

(33351), प्रफुल्ल गुप्ता (33352), प्रांतीक गूहा (33353), प्रतीक दत्ता (33354), रॉयचौधरी अभिषेक (33355), साकेत झा (33356), समृद्ध प्रभाकर (33357), सत्येन्द्र शॉ (33358), श्रीराज (33359), सौरभ दुग्गल (33360), विकास कुमार (33361), विवेका कामथ कुंदपुरा (33362) : 30 जून 14 से प्रभावी ।

डी शर्मा
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर — 3(डी)

सं. 182, दिनांक 12 जुलाई 2017—राष्ट्रपति 187 पायलट कोर्स के निम्नलिखित स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
फ्लाईंग (पायलट) शाखा

फ्लाईंग अफसर तेजस सुभाष कावले (31742) 18 जून 2011 से प्रभावी

राष्ट्रपति, सहर्ष 78 ए ई सी के स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्राप्त निम्नलिखित अफसर को 02 जनवरी 2012 से स्थायी करते हैं। इन्हें 02 जनवरी 2010 से पूर्व दिनांकित स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाईंग अफसर मनोज कुमार (31630) 02 जनवरी 2012 से प्रभावी 02 जनवरी 2010 से पूर्व दिनांकित

राष्ट्रपति, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर राजेश रामचंद्रन पिल्लई (32490), दीपक कुमार मिश्रा (32491) 30 जून 12 से प्रभावी ।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर दौलत राम (32492) 30 जून 12 से प्रभावी ।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर आत्म प्रकाश (32493) 30 जून 12 से प्रभावी ।

राष्ट्रपति 12 एस ई सी (गैर तकनीकी) के निम्नलिखित फ्लाइट कैंडेटों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
संभारिकी शाखा

शिजु जोसफ	32890	प्रभावी	15 दिसम्बर 12
-----------	-------	---------	---------------

शिक्षा शाखा

मोहम्मद शाजी	32891	प्रभावी	15 दिसम्बर 12
--------------	-------	---------	---------------

राष्ट्रपति, सहर्ष 83 ए ई सी के स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को 30 जून 14 से स्थायी करते हैं। इन्हें 30 जून 13 से पूर्व दिनांकित स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

फ्लाईंग अफसर श्याम सुंदर प्रभु सदानंदन (33448), सुमित सिंह सिधु (33333), लोकेश मेहलान (33331), विवेक गोपाल (33335) आकाश कुमार सिन्हा (33336) भट्टीप्रोलू साई सूर्या प्रनीत (33337), इज़राइल स्टीफन उलागनाथन (33329), के मुथामिल सेल्वान (33330), ऋषिपाल सिंह डिओरा (33340), सागर अविजीत शुक्ला (33341) चिराग चुग (33338), सैयद सलमान एन एच (33334), एन मोहम्मद रियाजुद्दीन (33339), मिथुन हरिलाल (33449) माइकल मेरीदास (33332) : 30 जून 14 से प्रभावी, पूर्व दिनांकित : 30 जून 13

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाईंग अफसर कमलप्रीत सिंह मान (33371), वतन गोयल (33379), आशिक सागीर (33366), आर्यन राज चौधरी (33345), सौरभ दुग्गल (33360), समृद्ध प्रभाकर (33357), जिलाय श्रवण कुमार (33370), प्रफुल्ल गुप्ता (33352), रॉयचौधरी अभिषेक (33355), कृष्ण कांत इसार (33383), प्रांतीक गूहा (33353), संचित कामरा (33376), गौरव सिंह बंडाल (33022) वैभव गुप्ता (33378), आकाश कश्यप (33343), प्रतीक दत्ता (33354), साकेत झा (33356), निशान तिवारी (32974) अभिषेक कुमार सिंह (33364), कांदला प्रवीन रेड्डी (33348), अंकुर अहलावत (33365), अजय मोहन (32979), मोहम्मद सफीज़ रहमान (33350),

मनिंदर सिंह बंकुरा (33373), कौशिक चक्रवर्ती (33363), कौशटम गांगुली (33349), विनय कुमार (33380), जैरी के सिबि (33347), अभिषेक कुमार सिंह (33342), अर्णब मुखर्जी (33344), प्रणब विनोद सुरेश (33374), प्रतीक कुमार सिंह (33375), ब्रिजेश कुमार गुप्ता (33346), विकास कुमार (33361), अभिषेक कश्यप (33381), श्रीराज (33359), विवेका कामथ कुंदपुरा (33362) गोपाल शुक्ला (33369), प्रदीप आर परमार (33382), सत्येन्द्र शॉ (33358), पल्लव गुप्ता (33351), बालासुब्रह्मण्यम प्रभाकर (33368), निरनीत चनोरिया (33028), मिलिन्द गर्ग (33017), संदीप कुमार यादव (33377), : 30 जून 14 से प्रभावी ,पूर्व दिनांकित : 30 जून 13

.राष्ट्रपति, 49 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों जिन्हें अल्पकालिक सेवा कमीशन (परखावधि पर) प्रदान किया गया है को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थाई करने की मंजूरी प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स)

फ्लाईंग अफसर रोचना शर्मा (31391), अर्चना कन्दासामी (31399) 30 जून 11 से प्रभावी

राष्ट्रपति, अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को नीचे दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :—

भारतीय वायुसेना
वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स)

फ्लाईंग अफसर अनुराग तिवारी (32027), अश्विता गुप्ता (31994), 07 जनवरी 2013 से प्रभावी

राष्ट्रपति, अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को नीचे दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :—

भारतीय वायुसेना
वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

फ्लाईंग अफसर जीशान अराबी (32303), अविनाश सामंता (32304), दिलीप कुमार नारथू (32305), पारनदमन अन्नादुराई (32306), पीयूष बंगरवा (32307), अनीश वर्गीज मोसी (32309), चंदन कुमार (32310), एस श्रीनिवासन (32311), अक्षय अरुण गंगवाल (32312), नरेन्द्र सिंह बिष्ट (32313), अजेश एस (32314), विनीत कुमार वी (32315), नितिन पवार (32316), मुकेश कुमार (32317), रोहित कुमार सिंह (32318), प्रवीण कुमार (32319), गौडविन जेपी (32320), अंजन ब्रह्मा (32321) ईशान गुलाटी (32322), दिशा तिवारी (32331), आरती देशवाल (32332), मिशेल स्वाति माइकल (32333), 07 जनवरी 2013 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स)

सुलभ महाजन (32323), एस शंकरन (32324), विजय पाटिल (32325), धीरज कुमार राठी (32327), तेजा डीवीएम (32328), मनोज एम (32329), अम्बर श्रीवास्तव (32330), श्रुति हंस (32334), प्रतिमा (32335), सिमरदीप कौर (32336), अस्मिता सहाय (32337), केतकी तोल (32338), सौम्या शर्मा (32339), सुमन शर्मा (32340), प्रीति शर्मा (32341), अपूर्व श्रीवास्तव (32342), आकांक्षा सिंह (32343), वत्सला जोशी (32344) ललिता मलिक (32345), रीतिका तोमर (32346), प्रथमा तक्षक (32348), शिखा चौधरी (32350), श्रेया दधीच (32352), शोभना गुप्ता (32353), प्रेरणा (32354), राजश्री होता (32355), जीजा अब्राहम (32356), अपूर्व प्रफुल्ल नांदेदकर (32357), ऐश्वर्या अजीत जोशी (32358), तरन्नुम भूटानी (32359), नेहा उपाध्याय (32361), 07 जनवरी 2013 से प्रभावी

राष्ट्रपति, 53 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों जिन्हें अल्पकालिक सेवा कमीशन (परखावधि पर) प्रदान किया गया है को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थाई करने की मंजूरी प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

फ्लाईंग अफसर हर्षद कुमार चावड़ा (32656), प्रियंक सिंह (32657), वरुण शंभाग (32658), संदीप ध्याल (32659), हिमांशु मिश्रा (32660), अभिषेक रंजन (32661), इशान किंखेड़े (32662), अनिल राज (32663), सी अच्युत एच शास्त्री (32664), सुखबीर सिंह (32665), सुयाश पराशर (32666), कनव उपाध्याय (32667), हरदीप सिंह (32668), के जासीम अब्दुल्ला (32669), ज्योति शर्मा (32673), स्वाति शुक्ला (32699), शिवांगी शर्मा (32700), बालासुब्रह्मण्य अन्नया (32701), विश्व चौधरी (32729), अमित सिंह (32308) 08 जुलाई 13 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स)

फ्लाईंग अफसर श्रीश (32674), रविकांत भट्ट (32675), सुशांत बंधावकर (32676), राहुल चौहान (32677), नितीश रंजीत गौतम (32678), सचिन जॉर्ज सैम (32679), तनवीर अहमद (32680), मृनाल जे बैश्या (32681), यजुर्वेद्रा सिंह (32682), सुमित शर्मा (32683), साहिल भोटा (32684), संजीव कुमार (32685), हर्ष प्रेमका (32686), राजनवीर बेनीपाल (32687), नरेश अथाला सौम्यजुला (32688), ए वी कार्तिक (32689), आनंद सुतार (32690), सेबिन कोट्टकल कुरियाकोसे (32691), के विजय कुमार (32692), नीरज कुमार (32693), यश श्रीवास्तव (32695), संदर्श मेहदीरत्ता (32696), विवेक पटनी (32697), वैभव कुमार (32698), हेमाद्रि भट्ट (32702), , नेहा यादव (32704), अंजली (32705), संजु (32706), कक्कुम्नाल्लोर वीरप्पा अनिला रानी (32707), अंशा व्यालुम्कल थॉमस (32708), प्रीति सुमन साहु (32709), शशिकला सेषाद्रि मिथरे (32710), मेघा सूद (32711), श्वेता सांगवान (32712), भूमिका शर्मा (32713), विभूति मंगल (32714), अपूर्वा तिवारी (32715), ईशा गिल (32716), अंकुश शर्मा (32717), आरुषि बेरी (32718), कनिष्क पटियाल (32730), शोभित सिंह (32731), रवि कांत (32732), दीप्ति शर्मा (32347), अपर्णा व्यास (32349), रवि प्रकाश पांडे (32326), अशोक कुमार (33124), सौरभ दीक्षित (33125), 08 जुलाई 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त निम्नलिखित 38 एस एस सी(डब्ल्यू) पायलट कोर्स के निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं:—

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईंग अफसर कल्याण अमरदीप कौर (33307) : 22 जून 13 से प्रभावी।

पी एस सुरंगे
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3(डी)

सेना शाखा

सं. 183, दिनांक 13 जुलाई 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै. कर्नल बनाया जाता है

मेजर एम एफ खान	(टीए-42527)	(इन्फैन्ट्री)	01 मई 2017
मेजर एच डी सिंह	(टीए-42529)	(इन्फैन्ट्री)	11 मई 2017
मेजर अनुराग श्रीवास्तव	(टीए-43004)	(इन्फैन्ट्री)	24 जनवरी 2017

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन प्रभु अमित चन्द्रकान्त	(टीए-42731)	(इन्फैन्ट्री)	22 मार्च 2017
-------------------------------	-------------	---------------	---------------

कैप्टन बनाया जाता है

लै. हिमांशु सक्सेना	टीए - 42868	(इन्जीनियर टीए)	01 दिसम्बर 2016
लै. विक्रम मीना	टीए - 42869	(इन्जीनियर टीए)	01 दिसम्बर 2016
लै. सुनील कुमार रामचन्दानी	टीए - 42870	(इन्जीनियर टीए)	01 दिसम्बर 2016
लै. कुमार आलोक	टीए - 42871	(इन्जीनियर टीए)	01 दिसम्बर 2016
लै. सन्तोष कुमार बरनवाल	टीए - 42872	(इन्जीनियर टीए)	01 दिसम्बर 2016
लै. आशीष मारवाहा	टीए - 42873	(इन्जीनियर टीए)	24 फरवरी 2017
लै. पंकज कुमार गुप्ता	टीए - 42874	(इन्जीनियर टीए)	24 फरवरी 2017
लै. सिद्धार्थ सुरेश	टीए - 42880	(इन्जीनियर टीए)	01 अक्टूबर 2016
लै. आरोकिया एन्टोनी एस	टीए - 42881	(इन्जीनियर टीए)	01 अक्टूबर 2016
लै. नारायण भास्कर पी	टीए - 42882	(इन्जीनियर टीए)	01 अक्टूबर 2016

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 184, दिनांक 14 जुलाई 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हीरा सिंह	(जे सी 499382एच)	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार दिलबाग सिंह	(जे सी 499633एफ)	01 अक्टूबर 2016

सूबेदार बलविन्दर सिंह	(जे सी 499649एम)	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार राजिन्दर सिंह	(जे सी 499692एन)	05 अक्टूबर 2016*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)		
सूबेदार बलविन्दर सिंह	(जे सी 499699एक्स)	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार गुरदीप सिंह	(जे सी 499751पी)	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार तरसेम सिंह	(जे सी 499752एक्स)	01 अक्टूबर 2016

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजविन्दर सिंह	(जे सी 500806एच)	06 मार्च 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राज सिंह	(जे सी 500756एच)	26 सितम्बर 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह	(जे सी 500528ए)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार बलजीत सिंह	(जे सी 500634वाई)	22 सितम्बर 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह	(जे सी 500660ए)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार अवतार सिंह	(जे सी 500798पी)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार जसविन्दरपाल सिंह	(जे सी 500662एल)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार अन्ग्रेज सिंह	(जे सी 500664डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह	(जे सी 500673एक्स)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार भाग सिंह	(जे सी 500727एन)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार परगट सिंह	(जे सी 500730एन)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार जगदेव सिंह	(जे सी 500747एफ)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार मसतान सिंह	(जे सी 500749एम)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार रविन्दर सिंह	(जे सी 500765के)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह	(जे सी 500767पी)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार रघबीर सिंह	(जे सी 500771एक्स)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार मोहर सिंह	(जे सी 500774एल)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार सुखदेव सिंह	(जे सी 500788एल)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार गुरमैल सिंह	(जे सी 500810एल)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार हरविन्दर सिंह	(जे सी 500813वाई)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह	(जे सी 500841एल)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार जसमेर सिंह	(जे सी 500844वाई)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार हरदीप सिंह	(जे सी 500866एक्स)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार कुलजीत सिंह	(जे सी 500871एच)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार सुनीत सिंह	(जे सी 500878एम)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार गुरविन्दर सिंह	(जे सी 500879पी)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार कुलविन्दर सिंह	(जे सी 500880के)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार प्रेमसिंह	(जे सी 500898ए)	01 अक्टूबर 2016

डोगरा रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम चन्द *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 522251 एम)	1 दिसम्बर 2016*
नायब सूबेदार जोगेन्द्र पॉल *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521787 डब्ल्यू)	24 दिसम्बर 2016*
नायब सूबेदार चन्द्र मोहन *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 522012 एक्स)	27 नवम्बर 2016*
नायब सूबेदार चमन लाल *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521716 पी)	30 दिसम्बर 2016*
नायब सूबेदार बालक राम *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521924 के)	26 दिसम्बर 2016*
नायब सूबेदार कुंवर प्रदीप कुमार *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521926 पी)	29 दिसम्बर 2016*
नायब सूबेदार रुप चन्द *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521933 एल)	11 दिसम्बर 2016*
नायब सूबेदार राज कुमार *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521906 एफ)	23 दिसम्बर 2016*
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 522034 डब्ल्यू)	5 दिसम्बर 2016*
नायब सूबेदार दीपक कुमार *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 522081 एन)	27 नवम्बर 2016*
नायब सूबेदार अनिल कुमार *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521833 ए)	31 जनवरी 2017*
नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521834 एच)	27 जनवरी 2017*
नायब सूबेदार जगदेव सिंह *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521928 ए)	24 दिसम्बर 2016*
नायब सूबेदार निक्का राम *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 522041 एम)	19 जनवरी 2017*
नायब सूबेदार जगदीश चन्द *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521976 ए)	10 जनवरी 2017*
नायब सूबेदार प्रेम कुमार *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)	(जेसी 521835 एल)	27 जनवरी 2017*
नायब सूबेदार आनन्द कशोर शर्मा सेना मेडल *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)	(जेसी 521879 एच)	30 जनवरी 2017*
नायब सूबेदार रमेश कुमार मेहला *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)	(जेसी 521887 एफ)	1 फरवरी 2017*
नायब सूबेदार चुनी लाल *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)	(जेसी 522078 एन)	10 जनवरी 2017*
नायब सूबेदार जगदीश चन्द *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521932 एच)	10 जनवरी 2017*
नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह, सेना मेडल *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(जेसी 521711 डब्ल्यू)	13 फरवरी 2017*

नायब सूबेदार पवन कुमार	(जेसी 521908 एम)	1 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार विजय कुमार	(जेसी 521953 वाई)	10 जनवरी 2017*
*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जालम सिंह	(जेसी 522094 एल)	2 जनवरी 2017*
*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार उधम सिंह राणा	(जेसी 522189 एल)	10 जनवरी 2017*
*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राज कुमार	(जेसी 521725 डब्ल्यू)	1 जनवरी 2017
नायब सूबेदार जोगेन्द्र पॉल	(जेसी 521959 ए)	18 जनवरी 2017
नायब सूबेदार स्रवण कुमार	(जेसी 522095 एन)	2 जनवरी 2017*
*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुभाष चन्द	(जेसी 522096 डब्ल्यू)	2 जनवरी 2017*
*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)		
सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में		
नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) चन्द्रा प्रकाश तिवारी	(जेसी 520155 वाई)	1 फरवरी 2017
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार केवल कृष्ण	(3992155एल अब जेसी 522492 एम)	12 मार्च 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 जून 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार बलविन्द्र कुमार	(3992251ए अब जेसी 522493 पी)	3 फरवरी 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार पुने राम	(3992202एक्स अब जेसी 522494 एक्स)	6 मार्च 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेश कुमार	(3994375एन अब जेसी 522495 ए)	2 फरवरी 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश कुमार	(3994444वाई अब जेसी 522496 एच)	2 फरवरी 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार सुन्दर सिंह	(4363606डब्ल्यू अब जेसी 522497 एल)	11 फरवरी 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार नरेश कुमार	(3992841वाई अब जेसी 522498 एन)	15 मार्च 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार नरेन्द्र सिंह	(3992726वाई अब जेसी 522499 डब्ल्यू)	11 मार्च 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)		
हवलदार सरताज कुमार	(3992744एफ अब जेसी 522500 ए)	9 मार्च 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)		
हवलदार प्यारे लाल	(3992811एफ अब जेसी 522501 एच)	9 मार्च 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)		
हवलदार गगन सिंह	(3992822एन अब जेसी 522502 एल)	9 मार्च 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)		
हवलदार देश राज वर्मा	(3992491एक्स अब जेसी 522503 एन)	23 फरवरी 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2017 से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश कुमार	(3993169एक्स अब जेसी 522504 डब्ल्यू)	1 मार्च 2017

हवलदार निहाल सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)	(3992731के अब जेसी 522505 वाई)	27 मार्च 2017*
हवलदार श्याम लाल	(3993318ए अब जेसी 522506 एफ)	1 मार्च 2017
हवलदार विजय कुमार	(3992516वाई अब जेसी 522507 के)	1 मार्च 2017
हवलदार सुभाष चन्द्र *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)	(3994332वाई अब जेसी 522508 एम)	21 मार्च 2017*
हवलदार कश्मीर सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)	(3994369ए अब जेसी 522509 पी)	3 अप्रैल 2017*
हवलदार परवीन कुमार *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)	(3992379एल अब जेसी 522510 के)	12 मार्च 2017*
हवलदार जिया लाल *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)	(3993025पी अब जेसी 522511 एम)	12 मार्च 2017*
हवलदार नरपत राम *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)	(3992645वाई अब जेसी 522512 पी)	27 मार्च 2017*
हवलदार प्रेम सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)	(3993998एल अब जेसी 522513 एक्स)	11 अप्रैल 2017*
हवलदार गुरदीप कुमार *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)	(3994513के अब जेसी 522514 ए)	11 अप्रैल 2017*
हवलदार कमल कुमार	(3992844एम अब जेसी 522515 एच)	1 मार्च 2017
हवलदार कुलदीप सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)	(3994737के अब जेसी 522516 एल)	10 अप्रैल 2017*
हवलदार पवन कुमार *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 2017 से दी जायेगी)	(3993381पी अब जेसी 522517 एन)	7 अप्रैल 2017*
हवलदार शेर सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)	(3992952डब्ल्यू अब जेसी 522518 डब्ल्यू)	6 अप्रैल 2017*
हवलदार वरिन्द्र कुमार *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)	(3993926एफ अब जेसी 522519 वाई)	5 अप्रैल 2017*
हवलदार पुष्पिन्द्र कुमार *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)	(3992906एफ अब जेसी 522520 एन)	12 अप्रैल 2017*
हवलदार विजय कुमार *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)	(3992870एन अब जेसी 522521 डब्ल्यू)	12 अप्रैल 2017*
हवलदार बलबीर सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)	(3992872वाई अब जेसी 522522 वाई)	12 अप्रैल 2017*
नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) के रैंक में		
हवलदार (लिपिक एस डी) मनोज कुमार नेवार	(3995705एन अब जेसी 522523 एफ)	1 मार्च 2017
हवलदार (लिपिक एस डी) ब्रिजेश प्रसाद द्विवेदी	(3995814ए अब जेसी 522524 के)	1 अप्रैल 2017
हवलदार (लिपिक एस डी) चुडास्मा वनराज सिन्हा	(3996109एन अब जेसी 522525 एम)	1 अप्रैल 2017
हवलदार (लिपिक एस डी) दलीप सिंह	(3996110एच अब जेसी 522526 पी)	1 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार अजय कुमार *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(3992546डब्ल्यू अब जेसी 522527 एक्स)	21 फरवरी 2017*
हवलदार बिशन दास *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(3995369एम अब जेसी 522528 ए)	10 फरवरी 2017*

हवलदार ब्रिकम चन्द	(3992622एक्स अब जेसी 522529 एच)	4 अप्रैल 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार अवनीष कटोच	(3992167ए अब जेसी 522530 एक्स)	13 अप्रैल 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
हवलदार विनोद डोगरा	(3993504डब्ल्यू अब जेसी 522531 ए)	26 अप्रैल 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
हवलदार अशोक कुमार	(3993111ए अब जेसी 522532 एच)	5 मई 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
हवलदार प्रदीप कुमार	(3993729वाई अब जेसी 522533 एल)	1 मई 2017
हवलदार राज कुमार	(3992890एफ अब जेसी 522534 एन)	1 मई 2017
नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) के रैंक में		
हवलदार (लिपिक एस डी) बलदेव सिंह	(3996111एल अब जेसी 522535 डब्ल्यू)	1 मई 2017
हवलदार (लिपिक एस डी) चन्द्र पाल	(3996114वाई अब जेसी 522536 वाई)	1 जून 2017
हवलदार (लिपिक एस डी) राजीव कुमार चौहान	(3996192डब्ल्यू अब जेसी 522537 एफ)	1 जून 2017
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार छम्बु राम	(3992932एच अब जेसी 522449 एल)	27 नवम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार जरनैल सिंह	(3992487पी अब जेसी 522450 ए)	24 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार सुशील कुमार	(3992943पी अब जेसी 522451 एच)	27 नवम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार रश पाल सिंह	(3992970वाई अब जेसी 522452 एल)	17 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश कुमार	(3992096के अब जेसी 522453 एन)	6 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार नरेश कुमार	(3394705के अब जेसी 522454 डब्ल्यू)	26 नवम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार रवी कुमार	(3994166डब्ल्यू अब जेसी 522455 वाई)	29 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार केवल सिंह	(3992100एफ अब जेसी 522456 एफ)	7 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार किशोर चन्द	(3992152एक्स अब जेसी 522457 के)	17 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार मोहिन्द्र सिंह	(3991643एफ अब जेसी 522458 एम)	3 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार विनोद कुमार	(3992961एक्स अब जेसी 522459 पी)	28 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार सुदेश कुमार गुदराल	(3993403एच अब जेसी 522460 के)	29 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार सन्दीप कुमार	(3992696एम अब जेसी 522461 एम)	24 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार करनैल सिंह	(3994206एम अब जेसी 522462 पी)	3 जनवरी 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		

हवलदार जगतार सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(3994316एफ अब जेसी 522463 एक्स)	3 जनवरी 2017*
हवलदार संजय कुमार *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(3992127वाई अब जेसी 522464 ए)	11 दिसम्बर 2016*
हवलदार मदन लाल *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(3993151एफ अब जेसी 522465 एच)	27 नवम्बर 2016*
हवलदार बलबीर सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)	(3992920एन अब जेसी 522466 एल)	27 जनवरी 2017*
हवलदार सोहन सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(3992938के अब जेसी 522467 एन)	27 जनवरी 2017*
हवलदार सुखविन्द सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(3992738एन अब जेसी 522468 डब्ल्यू)	24 दिसम्बर 2016*
हवलदार जगदीश लाल *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(3992433एन अब जेसी 522469 वाई)	10 जनवरी 2017*
हवलदार परवीन कुमार *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)	(3993038एम अब जेसी 522470 एन)	27 जनवरी 2017*
हवलदार सुनीत सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)	(3993100एन अब जेसी 522471 डब्ल्यू)	27 जनवरी 2017*
हवलदार श्याम सिंह *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)	(3992465डब्ल्यू अब जेसी 522472 वाई)	10 जनवरी 2017*
हवलदार जितेन्द्र कुमार *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जायेगी)	(3994142एम अब जेसी 522473 एफ)	3 जनवरी 2017*
हवलदार भारत भूषण	(3994494के अब जेसी 522474 के)	1 जनवरी 2017

नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक एस डी) राम सिंह भण्डारी *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)	(3995674वाई अब जेसी 522475 एम)	2 दिसम्बर 2016*
हवलदार (लिपिक एस डी) योगेन्द्र प्रसाद	(3995689एफ अब जेसी 522476 पी)	1 जनवरी 2017

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (जी.डी./क्लर्क) के रैंक में

हवलदार राम अनुप पाठक	(4273771ए अब जे.सी-561403वाई)	25 जनवरी 2016 01 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
----------------------	-------------------------------	---

- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।

हवलदार जेवीयर तूती	(4273346एफ अब जे.सी-561404एफ)	21 जनवरी 2016 01 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
--------------------	-------------------------------	---

- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।

हवलदार विलसन करकेटा	(4274486एन अब जे.सी-561405के)	21 जनवरी 2016 01 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
---------------------	-------------------------------	---

- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।

हवलदार अशोक खलखो	(4274312एन अब जे.सी-561406एम)	29 जनवरी 2016 06 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
------------------	-------------------------------	---

- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 06 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।

हवलदार मिक्की प्रसाद	(4274175ए अब जे.सी-561407पी)	21 जनवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार सोमनाथ ओरांव	(4274804 एम अब जे.सी-561408एक्स)	21 जनवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार अरविंद कुमार	(4276518के अब जे.सी-561409ए)	25 जनवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार संतोष कुमार पान्डे	(4271081एक्स अब जे.सी-561410पी)	01 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार बृज बिहारी सिंह	(4271330एल अब जे.सी-561411एक्स)	01 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार एनम किन्डो	(4271724के अब जे.सी-561412ए)	01 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार मनोज कुमार	(4271708एम अब जे.सी-561413एच)	01 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार यदू नन्दन सिंह	(4271758एक्स अब जे.सी-561414एल)	01 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार सुधीर कच्छप	(4272346एच अब जे.सी-561415एन)	01 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार सर्वेश्वर सामल	(4272532वाई अब जे.सी-561416डब्ल्यू)	01 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार अभय कुमार राय	(4274161ए अब जे.सी-561417वाई)	12 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार नितेश कुमार	(4274623एफ अब जे.सी-561418एफ)	01 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार कर्म चन्द भगत	(4272768एन अब जे.सी-561419के)	23 फरवरी 2016 02 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 02 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार हरीपाल	(4274840एन अब जे.सी-561420वाई)	08 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		

हवलदार नवीन कुमार	(4274196डब्ल्यू अब जे.सी-561421एफ)	01 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार डालू ओरॉव	(4274087के अब जे.सी-561422के)	22 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार बूधू इन्दवार	(4274060एम अब जे.सी-561423एम)	13 फरवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार मनोज कुमार	(4272457ए अब जे.सी-561424पी)	04 फरवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार राम राय हेम्बरम	(4274808एच अब जे.सी-561425एक्स)	13 फरवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार रौशन कुमार	(4274662ए अब जे.सी-561426पी)	08 फरवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार मनोज कुमार	(4274048एल अब जे.सी-561427एच)	08 फरवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार धूम सिंह चौहान	(4274467एच अब जे.सी-561428एल)	08 फरवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार लोकनाथ प्रधान	(4273514एच अब जे.सी-561429एन)	06 फरवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार प्रकाश कुजूर	(4271813ए अब जे.सी-561430एच)	23 फरवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार अनिल कुमार केरकेटा	(4272668एच अब जे.सी-561431एल)	18 फरवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार असानी कुमार नायक	(4273940डब्ल्यू अब जे.सी-561432एन)	20 जनवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार दिनेश कुमार सिंह	(4270994एम अब जे.सी-561433डब्ल्यू)	06 फरवरी 2016 01 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।		
हवलदार बसन्त ओरॉव	(4274069एफ अब जे.सी-561434वाई)	08 फरवरी 2016 01 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।		

हवलदार सुनील कश्यप	(4274068वाई अब जे.सी-561435एफ)	04 फरवरी 2016 01 नवम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2015 से दी जाती है।		
हवलदार लक्ष्मन नायक	(4273313के अब जे.सी-561436के)	04 फरवरी 2016 01 नवम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2015 से दी जाती है।		
हवलदार साकेत कुमार सिंह	(4273791एन अब जे.सी-56137एम)	14 जनवरी 2016 01 अक्टूबर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2015 से दी जाती है।		
हवलदार फिलिप होरो	(4271529एम अब जे.सी-561438पी)	22 फरवरी 2016 09 सितम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 09 सितम्बर 2015 से दी जाती है।		
हवलदार राजू सिंह कश्वाहा	(4271961एन अब जे.सी-561439एक्स)	03 फरवरी 2016 01 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।		
हवलदार धीरेन्द्र कुमार ठाकूर	(4272057एन अब जे.सी-561440एम)	03 फरवरी 2016 01 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।		
हवलदार मनवेन्द्र सिंह चौबे	(4271938ए अब जे.सी-561441पी)	03 फरवरी 2016 01 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।		
हवलदार मायाधर प्रधान	(4275610डब्ल्यू अब जे.सी-561442एक्स)	11 मार्च 2016 01 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।		
हवलदार राम प्रताप सिंह	(4271272एम अब जे.सी-561443ए)	18 फरवरी 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार छँकन लाल महतो	(4275068एल अब जे.सी-561444एच)	22 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार सुकरा ओरांव	(4273549वाई अब जे.सी-561445एल)	29 फरवरी 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2015 से दी जाती है।		
हवलदार रविन्द्र कुमार सिंह	(4271700ए अब जे.सी-561446एन)	08 मार्च 2016 01 मार्च 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2016 से दी जाती है।		
हवलदार संजय शुक्ला	(4274919ए अब जे.सी-561447डब्ल्यू)	01 मार्च 2016 01 मार्च 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2016 से दी जाती है।		
हवलदार जय मंगल ओरांव	(4275113एम अब जे.सी-561448वाई)	03 मार्च 2016 01 मार्च 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2016 से दी जाती है।		

हवलदार तीरथ मून्डा	(4272364एल अब जे.सी-561449एफ)	01 मार्च 2016 01 मार्च 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2016 से दी जाती है।		
हवलदार परमेश्वर ओरांव	(271723एफ अब जे.सी-561450डब्ल्यू)	01 मार्च 2016 01 मार्च 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2016 से दी जाती है।		
हवलदार मनोज कुमार सिंह	(4271512वाई अब जे.सी-561451वाई)	01 मार्च 2016 01 मार्च 2016
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2016 से दी जाती है।		
हवलदार राजेश कुमार सिंह	(4273726एन अब जे.सी-561452एफ)	17 मार्च 2016 01 मार्च 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2016 से दी जाती है।		
हवलदार धनेश्वर ओरांव	(4271865वाई अब जे.सी-561453के)	01 अप्रैल 2016 01 अप्रैल 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2016 से दी जाती है।		
हवलदार जार्ज इक्का	(4271928डब्ल्यू अब जे.सी-561454एम)	01 अप्रैल 2016 01 अप्रैल 2016 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2016 से दी जाती है।		
हवलदार कमल कान्त दास	(4272574एल अब जे.सी-561455पी)	02 अप्रैल 2016 01 मार्च 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2016 से दी जाती है।		
हवलदार राज कुमार सिंह	(4272199एल अब जे.सी-561456एक्स)	01 अप्रैल 2016 01 मार्च 2016 [ज्येष्ठता]•
• बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2016 से दी जाती है।		
हवलदार सूखदेव ओरांव	(4272865एल अब जे.सी-561457ए)	22 मार्च 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार जय प्रकाश सिंह	(4271994वाई अब जे.सी-561458एच)	09 अप्रैल 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार नेत्र लाल सिंह	(4271510एन अब जे.सी-561459एल)	01 अप्रैल 2016 01 फरवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार इजराईल सिन्कू	(4274553एन अब जे.सी-561460ए)	07 अप्रैल 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार प्रेम सिंह गोयल	(4272082एम अब जे.सी-561461एच)	09 अप्रैल 2016 01 जनवरी 2016 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।		
हवलदार अरुण कुमार सिंह	(4271045एम अब जे.सी-561462एल)	21 मार्च 2016 03 दिसम्बर 2015 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 03 दिसम्बर 2015 से दी जाती है।		

सिख रेजिमेन्ट
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरभाल सिंह	(3396086ए अब जेसी 501278डब्ल्यू)	26 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार जगदीश सिंह	(3397741ए अब जेसी 501279वाई)	01 अक्टूबर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार निर्मल सिंह	(3395555एल अब जेसी 501280एन)	01 सितम्बर 2016
हवलदार नरिन्दर सिंह	(3396328एक्स अब जेसी 501281डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2016
हवलदार मलकीत सिंह	(3396167ए अब जेसी 501282वाई)	01 सितम्बर 2016
हवलदार गुरबुक्श सिंह	(3396479वाई अब जेसी 501283एफ)	05 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार जसविन्दर सिंह	(3396779एक्स अब जेसी 501284के)	05 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार लिपिक ठाकुर तेजवीर सिंह	(3396863एक्स अब जेसी 501285एम)	16 सितम्बर 2016
हवलदार सुखचैन सिंह	(3394505एन अब जेसी 501286पी)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार अमरजीत सिंह	(3395459डब्ल्यू अब जेसी 501287एक्स)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार परमजीत सिंह	(3394842एच अब जेसी 501288ए)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार सुखविन्दर सिंह	(3400417डब्ल्यू अब जेसी 501289एच)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार तरसेम सिंह	(3396585पी अब जेसी 501290एक्स)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार कुलविन्दर सिंह	(3396592एल अब जेसी 501291ए)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार गुरजीत सिंह	(3395019एच अब जेसी 501292एच)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार परमजीत सिंह	(3395082एक्स अब जेसी 501293एल)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार सुखविन्दर सिंह	(3396605एक्स अब जेसी 501294एन)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार नरिन्दर सिंह	(3396279ए अब जेसी 501295डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार सुलाखन सिंह	(3397529एच अब जेसी 501296वाई)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार रणजीत सिंह	(3398045पी अब जेसी 501297एफ)	01 अक्टूबर 2016
हवलदार सुखविन्दर सिंह	(3398410एल अब जेसी 501298के)	01 अक्टूबर 2016

मराठा लाईट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार	एकनाथ पाटिल	(सं. 2792179पी अब जेसी-460855ए)	27 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2014 से दी जाती हैं।			
हवलदार	सतीश कुमार	(सं. 2789581एन अब जेसी-460856एच)	20 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अप्रैल 2014 से दी जाती हैं।			
हवलदार	सायाजी पाटिल	(सं. 2789699पी अब जेसी-460857एल)	20 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अप्रैल 2014 से दी जाती हैं।			
हवलदार	माशाल अशोक शालीग्राम	(सं. 2789733के अब जेसी-460858एन)	20 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अप्रैल 2014 से दी जाती हैं।			
हवलदार	जगताप अनिल साम्बाजी	(सं. 2790624के अब जेसी-460859डब्ल्यू)	01 जून 2014

हवलदार	बासवराज ताम्बूलगूडे	(सं. 2795520एम अब जेसी-460860एल)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	मारटिन डिसुजा	(सं. 2788403वाई अब जेसी-460863वाई)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार	निकम बाहूसाहिब जायाराम	(सं. 2789327के अब जेसी-460864एफ)	12 अक्टूबर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	बालेकर राजेंद्रा शंकर	(सं. 2789942एफ अब जेसी-460865के)	12 अक्टूबर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	चोगले यशवंत नामदेव	(सं. 2791734एल अब जेसी-460866एम)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार	पावार तानाजी शामराव	(सं. 2791402एफ अब जेसी-460867पी)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार	पाटिल तुकाराम रामचंद्रा	(सं. 2791384के अब जेसी-460868एक्स)	01 नवम्बर 2014
हवलदार	कूमकर प्रभाकर श्रीतंग	(सं. 2789640पी अब जेसी-460869ए)	21 नवम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	धोंगरे बंदू गजेंद्रा	(सं. 13757868एल अब जेसी-460870पी)	01 नवम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	बामूचे गनपति रूकमाना	(सं. 2791206एफ अब जेसी-460871एक्स)	17 अक्टूबर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	यादव अन्नासाहिब त्रिम्बक	(सं. 2791838एम अब जेसी-460872ए)	01 नवम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 सितम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	ताकत गनपत प्रभू	(सं. 2788469पी अब जेसी-460873एच)	10 नवम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	चवान अंकुश राम	(सं. 2789379ए अब जेसी-460875एन)	25 नवम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	गावडे सूर्यबा महादेव	(सं. 2790893डब्ल्यू अब जेसी-460876डब्ल्यू)	12 नवम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	बास्कर संजय पूंडलिक	(सं. 2791355पी अब जेसी-460877वाई)	12 नवम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	भोहते मधुकर दत्तु	(सं. 2790582एच अब जेसी-460879के)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	बंकर संजय शंकर	(सं. 2789717एम अब जेसी-460880वाई)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	गूजावले प्रामोद बबन	(सं. 2789694डब्ल्यू अब जेसी-460881एफ)	05 जनवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	चवान विजय शंकर	(सं. 2790517एच अब जेसी-460882के)	24 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		

हवलदार	सारोदे आम्बादास अन्नासाहिब (सं. 2793563एच अब जेसी—460883एम)	01 जनवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	पाटिल नामदेव श्रीपति (सं. 2790584एन अब जेसी—460884पी)	23 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	शेतये दीपक साखाराम (सं. 2790014एक्स अब जेसी—460885एक्स)	12 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	कदम यशवंत काशीराम (सं. 2789253ए अब जेसी—460886ए)	15 जनवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	गवस सादानंद रामचंद्रा (सं. 2788993एच अब जेसी—460887एच)	16 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	धाडगे रामदास शामराव (सं. 2791391ए अब जेसी—460888एल)	01 नवम्बर 2014
हवलदार	शाम (सं. 2789662एन अब जेसी—460889एन)	30 नवम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	धुले पोपट जयवंत (सं. 2792484एफ अब जेसी—460890एच)	02 जनवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	कूत्तूवदीन वेकून्द (सं. 2792716पी अब जेसी—460891एल)	22 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	शिन्दे आदुम्बर रांगराव (सं. 2789493एक्स अब जेसी—460892एन)	08 जनवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	पारधी नामदेव सोमा (सं. 13619026एफ अब जेसी—460893डब्ल्यू)	08 जनवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	मधू पाटिल (सं. 2789287एन अब जेसी—460895एफ)	24 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	रोयेकर रूस्तम नानासाहिब (सं. 2791612एफ अब जेसी—460896के)	08 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	उत्तम कोवाडकर (सं. 2793778एफ अब जेसी—460897एम)	18 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	साकूंदे सन्तोष झंझाराव (सं. 2794932एफ अब जेसी—460898पी)	26 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।	
हवलदार	एस दादापीर (सं. 2794656के अब जेसी—460899के)	17 जनवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।	

हवलदार	गोले विकास बिठठल	(सं. 2796468एफ अब जेसी-460900एफ)	27 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	पावार राकेश विठठल	(सं. 2793060एक्स अब जेसी-460901के)	18 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	चवान मंगेश जानारदन	(सं. 2790215डब्ल्यू अब जेसी-460902एम)	12 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	गनपत बेलगाउकर	(सं. 2792600वाई अब जेसी-460903पी)	23 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	माने मंगेश बिठठल	(सं. 2805501एक्स अब जेसी-460905ए)	16 जनवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है।		
हवलदार	दयानन्द नेसरीकर	(सं. 2791995वाई अब जेसी-460906एच)	16 जनवरी 2015*
	नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है।		
हवलदार	बगटे नन्दु धोन्दीबा	(सं. 2791192एम अब जेसी-460907एल)	01 जनवरी 2015
हवलदार	सुरेश कुमार आर	(सं. 2790295वाई अब जेसी-460908एन)	01 जनवरी 2015
हवलदार	अशोक सतपालकर	(सं. 2790464पी अब जेसी-460909डब्ल्यू)	06 जनवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है।		
हवलदार	मोकासे नारायण फकीरराव	(सं. 2790799एम अब जेसी-460910एल)	06 फरवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	बोरसे निलेश उमाराव	(सं. 2791594के अब जेसी-460911एन)	27 दिसम्बर 2014*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	पलव चन्द्रकान्त तुकाराम	(सं. 2790681एल अब जेसी-460912डब्ल्यू)	18 जनवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	सालूखे सुरेश गोविन्द	(सं. 2788796ए अब जेसी-460913वाई)	06 फरवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	रावसाहिब कोलेकर	(सं. 2791733एच अब जेसी-460914एफ)	02 फरवरी 2015*
	*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।		

नायब सूबेदार लिपिक (एस डी) के रैंक में

हवलदार लिपिक (एस डी)	माडागाला कोटेशेवरा राव	(सं. 2788661वाई अब जेसी-460861एन)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक (एस डी)	संजय कुमार हलदार	(सं. 2786855एच अब जेसी-460862डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2014

हवलदार लिपिक (एस डी)	पाटिल नेताजी विशवास *नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।	(सं. 2788731एम अब जेसी-460874एल)	28 नवम्बर 2014*
हवलदार लिपिक (एस डी)	उमासे साउबा मारुती	(सं. 2886608के अब जेसी-460878एफ)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार लिपिक (एस डी)	जगमोहन सिंह *नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।	(सं. 2789045एल अब जेसी-460894वाई)	01 जनवरी 2015*
हवलदार लिपिक (एस डी)	राजेश कुमार	(सं. 2790146एल अब जेसी-460904एक्स)	01 जनवरी 2015

टी डी प्रशांत राव
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एम जी ओ)

सं. 185, दिनांक 17 जुलाई 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

इलेक्ट्रॉनिक्स और मेकेनिकल इंजनियरिंग कर्मिक

नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

मथुरामलिंगम जी	(14615607 एक्स अब जेसी-773817 एफ)	01 फरवरी 2017
कृशान सिंह	(14615888 वाई अब जेसी-773816 वाई)	01 फरवरी 2017
जगन कुमार	(1461570 एन अब जेसी-773811 ए)	01 फरवरी 2017
भागेश्वर सिंह	(14615973 एफ अब जेसी-773814 एन)	01 फरवरी 2017
राजेश कुमार बोरा	(14615555 एम अब जेसी-773820 एफ)	04 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017
अनील कुमार के जी	(14615876 के अब जेसी-773815 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2017

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार आटो टेक बी व्यहीकल के रैंक में

घनश्याम सिंह	(14620401 के अब जेसी-773789 ए)	01 फरवरी 2017
सुरेश कुमार सेईन	(14620406 एच अब जेसी-773790 पी)	04 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017
केशव तामूलि	(14620463 के अब जेसी-773793 एच)	01 फरवरी 2017
जनागम वेंकटेशवारलू	(14620505 एल अब जेसी-773796 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2017
दिनेशन कारावकेल	(14620507 डब्ल्यू अब जेसी-773797 वाई)	01 फरवरी 2017
रिंगशत मचाहरी	(14620879 एफ अब जेसी-773798 एफ)	01 फरवरी 2017

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक नेटवर्क के रैंक में

शशी भूषण पी डी सिंह	(14657010 डब्ल्यू अब जेसी-773784 एफ)	01 फरवरी 2017
बधेल भूपेन्द्र के पी डी	(14654016 एम अब जेसी-773912 एन)	01 फरवरी 2017 24 दिसम्बर 2016

नायब सूबेदार एम टेक ईलेक्ट के रैंक में		
शामशेर सिंह	(14628424 ए अब जेसी—773694 ए)	01 फरवरी 2017
हरभान सिंह	(14638155 एम अब जेसी—773857 एच)	01 फरवरी 2017
कृष्णा दास एम एस	(14633303 एच अब जेसी—773851 एफ)	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में		
पिंटु दास	(14627496 एक्स अब जेसी—773834 एफ)	01 फरवरी 2017
पिंकेश कुमार	(14626396 एल अब जेसी—773832 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2017
सलाके संतोश विजाल	(14631719 एफ अब जेसी—773835 के)	<u>04 फरवरी 2017</u> 01 फरवरी 2017
आशुतोष प्रसन्ना शर्मा	(14626195 एफ अब जेसी—773831 एन)	01 फरवरी 2017
एम डी जहीरुद्दीन बाबर	(14639086 एन अब जेसी—773837 पी)	01 फरवरी 2017
पी याधव	(14633282 एक्स अब जेसी—773836 एम)	01 फरवरी 2017
जवाहर लाल सिंह	(14626422 डब्ल्यू अब जेसी—773833 वाई)	01 फरवरी 2017
अजय कुमार	(14630317 एक्स अब जेसी—773914 वाई)	<u>04 फरवरी 2017</u> 01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक एस ए के रैंक में		
सुकदेव पाईन	(14646096 ए अब जेसी—773847 वाई)	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक ए वैहीकल के रैंक में		
शिब सरन मंडल	(14634649 वाई अब जेसी—773902 के)	<u>01 फरवरी 2017</u> 21 जनवरी 2017
हुब्बुल जामाल	(14631246 एन अब जेसी—773900 वाई)	<u>01 फरवरी 2017</u> 21 जनवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक बी वैहीकल के रैंक में		
मनोज कुमार यादव	(14634966 ए अब जेसी—773884 एम)	01 फरवरी 2017
ए पन्नुस्वामी	(14634279 के अब जेसी—773878 वाई)	01 फरवरी 2017
ओम प्रकाश साहारन	(14635052 एच अब जेसी—773907 एच)	<u>06 फरवरी 2017</u> 01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में		
सुसांत कुमार प्रधान	(14632847 एल अब जेसी—773860 एच)	<u>01 फरवरी 2017</u> 07 जनवरी 2017
* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।		
नायब सूबेदार आटो ईलेक्ट बी वैहीकल के रैंक में		
ईलेश सिंह	(14619762 डब्ल्यू अब जेसी—773909 एन)	01 फरवरी 2017
* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।		
नायब सूबेदार एम टेक रंडर के रैंक में		
संजय एस	(14626956 एफ अब जेसी—773785 के)	01 फरवरी 2017
गुरमुख सिंह	(14638287 ए अब जेसी—773786 एम)	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार अर्मामेंट फील्ड के रैंक में		
भिवकु लाल ईनवाति	(14642124 के अब जेसी—773787 पी)	<u>01 फरवरी 2017</u> 01 फरवरी 2017
* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		

नायब सूबेदार एम टेक ए बैहीकल के रैंक में		
अनील कुमार शर्मा	(14625985 के अब जेसी—773899 पी)	01 फरवरी 2017 07 जनवरी 2017
गिरीश चन्द्र भाट	(14639905 एम अब जेसी—773766 वाई)	01 जनवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक अप्टो के रैंक में		
एम मूरुगेसन	(14637450 एच अब जेसी—773843 एच)	01 फरवरी 2017
प्रीथिस कुमार मैती	(14642911 एल अब जेसी—773845 एन)	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक बी बैहीकल के रैंक में		
सरोज कुमार सिंह	(14634212 एल अब जेसी—773874 एच)	01 फरवरी 2017
अशोक छलावाडि	(14634277 वाई अब जेसी—773877 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2017
परवीन ठाकुर	(14627617 एन अब जेसी—773893 एन)	01 फरवरी 2017
राम परवेश	(14634960 वाई अब जेसी—773882 एफ)	01 फरवरी 2017
कमल किशोर	(14633577 एन अब जेसी—773873 ए)	01 फरवरी 2017
ओम देव	(14634547 एच अब जेसी—773880 डब्ल्यू)	02 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेसन के रैंक में		
शिंदे वैजनाथ भाउ	(14632601 एम अब जेसी—773840 पी)	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक ईलेक्ट के रैंक में		
धरमवीर सिंह	(14633550 डब्ल्यू अब जेसी—773852 के)	01 फरवरी 2017
* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन ए ई एफ के रैंक में		
अमिया कुमार साहु	(14655458 एक्स अब जेसी—773744 ए)	14 जनवरी 2017 01 जनवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन ए एफ के रैंक में		
बोरसे मछीन्द्र रंगराव	(14643560 एन अब जेसी—773824 एक्स)	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन ईलक्ट के रैंक में		
सतीश कुमार	(14657740 एफ अब जेसी—773824 एक्स)	01 फरवरी 2017
बलदेवी प्रसाद	(14635884 के अब जेसी—773861 एल)	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन आई पी के रैंक में		
डिके अनंत सखाराम	(14645717 एफ अब जेसी—773863 डब्ल्यू)	02 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017
कपील कुमार	(14650296 एन अब जेसी—773864 वाई)	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन ए वी के रैंक में		
जाधव सचिन बालासाव	(14660443 वाई अब जेसी—773866 के)	01 फरवरी 2017
जे चन्द्र मोहन	(14643266 एन अब जेसी—773862 एन)	01 फरवरी 2017
* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार ड्राईवर एम टी के रैंक में		
महीपाल सिंह	(14619573 एम अब जेसी—773494 के)	02 जनवरी 2017 01 जनवरी 2017

खजन सिंह	(14619584 वाई अब जेसी—773867 एम)	01 फरवरी 2017
अशोक कुमार दास	(14619594 एच अब जेसी—773868 पी)	01 फरवरी 2017
जगपाल सिंह चाहार	(14619561 एक्स अब जेसी—773711 पी)	01 फरवरी 2017
बिनोद कुमार	(14619583 डब्ल्यू अब जेसी—773712 एक्स)	01 फरवरी 2017

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेसन के रैंक में

राकेश राममूर्ति सिंह	(14632605 एच अब जेसी—773841 एक्स)	18 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017
जतिंदर सिंह	(14636333 एल अब जेसी—773474 डब्ल्यू)	10 दिसम्बर 2017 01 मार्च 2017
रंजिथ कुमार पी वी	(14632877 एच अब जेसी—773993 वाई)	01 मार्च 2017

नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेसन के रैंक में

विनोद कुमार	(14634267 पी अब जेसी—773875 एल)	01 फरवरी 2017
अरविंद कुमार	(14635077 पी अब जेसी—773885 पी)	20 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेसन के रैंक में

मनोज कुमार	(14653838 एक्स अब जेसी—773920 एम)	14 फरवरी 2017 04 फरवरी 2017
देशबंधू रै	(14652289 एच अब जेसी—773916 के)	18 फरवरी 2017 04 फरवरी 2017
सुरेश मोहन्ती	(14655609 एल अब जेसी—773922 एक्स)	11 फरवरी 2017 04 फरवरी 2017
अविनाश कुमार महतो	(14657048 ए अब जेसी—773924 एच)	16 फरवरी 2017 04 फरवरी 2017
संतोश कुमार यादव	(14657710 के अब जेसी—773926 एन)	15 फरवरी 2017 04 फरवरी 2017
मनिश कुमार	(14657893 एल अब जेसी—773927 डब्ल्यू)	14 फरवरी 2017 04 फरवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक ईलेक्ट के रैंक में

दिलीप कुमार बिसोयी	(14636311 एम अब जेसी—773855 एक्स)	10 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------

नायब सूबेदार एम टेक नेटवर्क के रैंक में

कुनाल काप्पुर	(14657009 एफ अब जेसी—773783 वाई)	21 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017
---------------	----------------------------------	--------------------------------

नायब सूबेदार एम टेक जी सी ई के रैंक में

राजेश कुमार	(14635622 एन अब जेसी—774002 एम)	01 मार्च 2017
-------------	---------------------------------	---------------

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

संजय कुमार मंडोली	(1464991 एफ अब जेसी—773802 वाई)	01 फरवरी 2017
प्रभात कुमार रंजन	(14641873 एन अब जेसी—773804 के)	01 फरवरी 2017
धीरज सिंह चौहान	(14620301 वाई अब जेसी—773813 एल)	01 फरवरी 2017

नरेन्द्र कुमार	(14642031 पी अब जेसी—773803 एफ)	01 फरवरी 2017
चंदेरमन कुमार तिवारी	(14620365 के अब जेसी—773807 एक्स)	01 फरवरी 2017
टी राजु	(14642028 पी अब जेसी—773805 एम)	04 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017
प्रमोद कुमार सिंह	(14620356 एच अब जेसी—773806 पी)	01 फरवरी 2017
मनोज कुमार	(14642666 एन अब जेसी—773810 एक्स)	01 फरवरी 2017
एस साम सुन्दर सिंह	(14641988 एफ अब जेसी—773809 एच)	01 फरवरी 2017
जयानंदा जाना	(14639355 पी अब जेसी—773808 ए)	01 फरवरी 2017

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार अपरेटर ड्राईवर रिकवारी के रैंक में

राकेश कुमार	(14685389 एफ अब जेसी—773910 एस)	01 फरवरी 2017
धायन सिंह	(14657179 एल अब जेसी—773911 एल)	01 फरवरी 2017

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन ए एफ के रैंक में

अरोकिया राज टी बी	(14643264 एच अब जेसी—773822 एम)	07 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017
दिलेस्वर बेहेरा	(14643650 पी अब जेसी—774029 के)	17 फरवरी 2017 05 फरवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन ए ई के रैंक में

जसटिन थिरवियाम ए	(14656753 एम अब जेसी—773865 एफ)	04 फरवरी 2017 01 फरवरी 2017
------------------	---------------------------------	--------------------------------

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 186, दिनांक 18 जुलाई 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्ती

लै. कर्नल संजीव मिश्रा	(टीए—42520)	(इन्फैन्ट्री)	30 अप्रैल 2017
लै. कर्नल सुनिल कुमार	(टीए—42121)	(इन्जीनियर टीए)	31 जनवरी 2017 (अप.)

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 187, दिनांक 19 जुलाई 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 अप्रैल 2016 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना स्थायी कमीशन

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी—41510	कर्नल	रमेश कुमार डंडियाल	इन्जीनियर्स
आई सी—41527	कर्नल	राजिन्दर सिंह भनवाला	इन्जीनियर्स

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-41701	कर्नल	अजय गुप्ता	आर्टी
आई सी-42420	कर्नल	जयचन्द्रन नायर	इन्फैन्ट्री
आई सी-45263	कर्नल	कुलवंत सिंह नागियाल	इन्जीनियर्स
आई सी-45391	कर्नल	नीरज शर्मा	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-45540	कर्नल	राकेश ठाकुर	एसी
आई सी-45824	कर्नल	रामेश्वर शर्मा	इन्फैन्ट्री
आई सी-47071	कर्नल	कमल सिंह भडवाल	एससी
आई सी-47502	कर्नल	अश्वनी कुमार	ईएमई
एस एल-03570	कर्नल	अशोक बीदकर	एस एल
आई सी-40410	कर्नल (टी एस)	अरविन्द कुमार सिन्हा, एससी	इन्फैन्ट्री
आई सी-40453	कर्नल (टी एस)	रंजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
आई सी-40840	कर्नल (टी एस)	बलजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
आई सी-40967	कर्नल (टी एस)	विवेक सरन	इन्फैन्ट्री
आई सी-41269	कर्नल (टी एस)	संजीव त्यागी	इन्फैन्ट्री
आई सी-41560	कर्नल (टी एस)	अनुपम कुमार गुप्ता	इन्फैन्ट्री
आई सी-41643	कर्नल (टी एस)	दपिन्दर सिंह संधु	इन्फैन्ट्री
आई सी-41700	कर्नल (टी एस)	देबब्रता मिश्रा	आर्टी
आई सी-42224	कर्नल (टी एस)	अजीत कुमार सिंह चौहान	एएससी
आई सी-42441	कर्नल (टी एस)	रविन्दर सिंह देसवाल	एओसी
आई सी-42594	कर्नल (टी एस)	कौशलेन्द्र कुमार	सिग्नल्स
आई सी-42656	कर्नल (टी एस)	राजेश कुमार श्रीवास्तव	आर्टी
आई सी-43134	कर्नल (टी एस)	संजय माथुर	आर्टी
आई सी-44435	कर्नल (टी एस)	राजशेखर हरसुर	इन्जीनियर्स
आई सी-44461	कर्नल (टी एस)	आनंद कुमार पाण्डेय	ईएमई
आई सी-44824	कर्नल (टी एस)	आशीष सुंदरलाल	एएससी
आई सी-44985	कर्नल (टी एस)	प्रकाश कुमार एम पी	इन्जीनियर्स
आई सी-45276	कर्नल (टी एस)	विजय कुमार डेक	आर्टी
आई सी-45491	कर्नल (टी एस)	जगदीप सिंह लैली	आर्टी
आई सी-45595	कर्नल (टी एस)	जोशी विवेक जे	एएडी
आई सी-45601	कर्नल (टी एस)	प्रदीप कुमार	ईएमई
आई सी-45647	कर्नल (टी एस)	आलोक परमार	एसी
आई सी-45667	कर्नल (टी एस)	ज्योति कुमार बोस	ईंट कोर
आई सी-45760	कर्नल (टी एस)	कलाथिल दिनेश	इन्फैन्ट्री
आई सी-45886	कर्नल (टी एस)	साईनाथ गोपीनाथ	ईएमई
आई सी-45946	कर्नल (टी एस)	जगपाल सिंह गिल	आर्टी
आई सी-45960	कर्नल (टी एस)	संजय यादव	आर्टी
आई सी-47136	कर्नल (टी एस)	संदीप कुमार घोष	एओसी
आई सी-47822	कर्नल (टी एस)	मधुबल बी	सिग्नल्स
आई सी-49683	ले कर्नल	कुलदीप सिंह	इन्फैन्ट्री

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-50323	ले कर्नल	गोविन्द सिंह तंवर	इन्फैन्ट्री
आई सी-50718	ले कर्नल	दलबीर सिंह	एओसी
आई सी-51266	ले कर्नल	विजय कुमार सिंह	एओसी
आई सी-51333	ले कर्नल	ओम प्रकाश चौहान	इन्फैन्ट्री
आई सी-51644	ले कर्नल	अरुण कुमार	ईएमई
एस एल-04334	ले कर्नल	सुरेश सिंह कलालिया	एस एल (क्यू एम)
एस एल-05104	ले कर्नल	नारायणन नायर के	एस एल आई
एस सी-00133	ले कर्नल	पैट्रिक जॉन	सिग्नल्स
एस सी-00198	ले कर्नल	गुलशन कुमार चोना	इन्फैन्ट्री

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मई 2016 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना स्थायी कमीशन

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-40515	कर्नल	सुबोध कुमार	इन्फैन्ट्री (कुमायू)
आई सी-40798	कर्नल	के पी आर हरि	इन्फैन्ट्री (बिहार)
आई सी-41923	कर्नल	उमेद सिंह मिथरवाल	एएससी
आई सी-42999	कर्नल	हरिन्द्र त्रिपाठी	एओसी
आई सी-43022	कर्नल	परम कृपाल सिंह भाटी	इन्फैन्ट्री (11 जी आर)
आई सी-44980	कर्नल	जी एल नवरत्ना केशव	इन्जीनियर्स
आई सी-45416	कर्नल	दिनेश अलघ	एएससी
आई सी-48021	कर्नल	बासवराज पाटिल	इन्जीनियर्स
एस एल-04178	कर्नल	अजीत सिंह	एस एल आई
आई सी-40481	कर्नल (टी एस)	सुरेन्द्र कुमार सिंह	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-40604	कर्नल (टी एस)	मुरारी कुमार	इन्फैन्ट्री (मद्रास)
आई सी-40831	कर्नल (टी एस)	फैज अहमद फारुकी	आर्टी
आई सी-40883	कर्नल (टी एस)	बाबू भास्कर चेरुकट	इन्फैन्ट्री(जैक राइफल्स)
आई सी-40935	कर्नल (टी एस)	रविन्द्र कुमार रवि	इन्फैन्ट्री(ग्रेनेडियर्स)
आई सी-40937	कर्नल (टी एस)	सुधाकर वंसतराव पाटिल	इन्जीनियर्स
आई सी-40969	कर्नल (टी एस)	जवाहर मंडल	इन्फैन्ट्री(जैक राइफल्स)
आई सी-41092	कर्नल (टी एस)	राकेश कपिला	इन्जीनियर्स
आई सी-41227	कर्नल (टी एस)	सयाजी जे खंडैत	इन्फैन्ट्री(पंजाब)
आई सी-41343	कर्नल (टी एस)	कुलदीप शर्मा	आर्टी
आई सी-41561	कर्नल (टी एस)	कोलासानी श्रीनिवास	ईएमई
आई सी-41773	कर्नल (टी एस)	मनमोहन सिंह विर्क	आर्टी
आई सी-41811	कर्नल (टी एस)	सतपाल सागवाल	एएससी
आई सी-42216	कर्नल (टी एस)	रविन्द्र कुमार शर्मा	एएससी
आई सी-42672	कर्नल (टी एस)	प्रकाश आनंद अय्यर	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-43076	कर्नल (टी एस)	देविन्दर पाल सिंह संधु	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-43085	कर्नल (टी एस)	सुरिन्दर सिंह राणा	इन्फैन्ट्री(पंजाब)

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-43098	कर्नल (टी एस)	प्रवीर कांत झा	सिग्नल्स
आई सी-43133	कर्नल (टी एस)	लोकेश शर्मा	एओसी
आई सी-43146	कर्नल (टी एस)	राहुल जौहरी	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-43151	कर्नल (टी एस)	ज्ञानेन्द्र पाल सिंह	एओसी
आई सी-43635	कर्नल (टी एस)	विश्वेश्वर बाबू बी एस	इन्जीनियर्स
आई सी-44913	कर्नल (टी एस)	प्रभाष बोस	ईएमई
आई सी-44928	कर्नल (टी एस)	दीपक कुमार अग्रवाल	इन्जीनियर्स
आई सी-44933	कर्नल (टी एस)	संजीव शंकरगौडा पाटिल	इन्जीनियर्स
आई सी-44939	कर्नल (टी एस)	मोहम्मद रफिउद्दीन	ईएमई
आई सी-45392	कर्नल (टी एस)	अनिल कुमार बक्शी	एसी
आई सी-45442	कर्नल (टी एस)	लक्ष्मण सिंह भरत सिंह चौहान	एसी
आई सी-45492	कर्नल (टी एस)	अजय बीर सिंह भंडारी	आर्टी
आई सी-45519	कर्नल (टी एस)	चन्द्र कांत अग्रवाल	जैग
आई सी-45563	कर्नल (टी एस)	पी नारायण मेनन	एसी
आई सी-45660	कर्नल (टी एस)	अनिल कुमार चौहान	एसी
आई सी-45671	कर्नल (टी एस)	प्रशांत कुमार दास	इन्फैन्ट्री (असाम)
आई सी-45853	कर्नल (टी एस)	कुलजीव जयसवाल	आर्टी
आई सी-45970	कर्नल (टी एस)	भानु के जॉर्ज	ईएमई
आई सी-46054	कर्नल (टी एस)	मौलिस चन्द्र	इन्जीनियर्स
आई सी-46099	कर्नल (टी एस)	जगमोहन सिंह	इन्फैन्ट्री (पंजाब)
आई सी-48942	कर्नल (टी एस)	कौथरापु श्रीनिवास	सिग्नल्स
आई सी-48944	कर्नल (टी एस)	मनोज कुमार	इन्जीनियर्स
आई सी-48420	ले कर्नल	नवीन कुमार बिसारिया	एएससी
आई सी-49321	ले कर्नल	मनोरंजन प्रसाद सिंह	आर्टी
आई सी-50387	ले कर्नल	नरेन्द्र सिंह नेगी	एओसी
आई सी-50821	ले कर्नल	योहानन केएम	आर्टी
आई सी-51642	ले कर्नल	नवरत्न सिंह	इन्फैन्ट्री (सिख ली)
आई सी-51778	ले कर्नल	सुधीर कुमार चौधरी	आर्टी
आई सी-51785	ले कर्नल	शिंदे हरिबा रनोबा	आर्टी
एस एल-03899	ले कर्नल	मनमधन नायर डी	एस एल ईई
एस एल-04100	ले कर्नल	देव गीरि	एस एल आरओ
एस एल-04135	ले कर्नल	एम मोहन प्रकाश	एस एल आर्क
एस एल-04153	ले कर्नल	मनप्रीत सिंह	एस एल आरओ
एस एल-04160	ले कर्नल	राज बहादुर राणा	एस एल क्यूएम
एस एल-04172	ले कर्नल	मोहनन एम के	एस एल क्यूएम
एस एल-04183	ले कर्नल	हनुमंत सोपनराव भोसले	एस एल बीआर
एस एल-04208	ले कर्नल	सी वी राजेन्द्र	एस एल आर्क
एस एल-04242	ले कर्नल	पी बास्करन	एस एल क्यूएम
एस एल-04259	ले कर्नल	सुरेन्द्र सिंह विष्ट	एस एल क्यूएम

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
एस एल-04287	ले कर्नल	के पंकजावक्षण	एस एल टीईओ (एएडी)
एस एल-04332	ले कर्नल	बोंगे हरि लक्ष्मण	एस एल साईफर
एस एल-04390	ले कर्नल	शाजी एम पानीकर	एस एल क्यूएम
एस एल-04392	ले कर्नल	पुष्पराजन वीपी	एस एल क्यूएम
एस एल-04416	ले कर्नल	प्रेम नाथ	एस एल क्यूएम
एस एल-05068	ले कर्नल	राधे श्याम सिंह यादव	एस एल टीईओ (आर्टी)
एस एल-05077	ले कर्नल	बचन सिंह चंदेल	एस एल आई
एस एल-05117	ले कर्नल	रोहतास सिंह	एस एल टीईओ (आर्टी)
आई सी-40778	कर्नल	बलबीर सिंह	इन्फैन्ट्री (सिख ली)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 जून 2016 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना स्थायी कमीशन

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-40315	कर्नल	प्रेम प्रकाश	इन्फैन्ट्री
आई सी-40335	कर्नल	आशू न बहल	इन्जीनियर्स
आई सी-41125	कर्नल	विवेक डावर	इन्जीनियर्स
आई सी-41148	कर्नल	भारत भूषण पान्डेय	एसी
आई सी-41413	कर्नल	रोहित शुक्ला	आर्टी
आई सी-41735	कर्नल	गुरदीप सिंह भंडाल	सिग्नल्स
आई सी-42229	कर्नल	राजीव कुमार भाटी	इन्फैन्ट्री
आई सी-42579	कर्नल	रवि प्रकाश टूटेजा	इन्फैन्ट्री
आई सी-42703	कर्नल	जग मोहन दुर्गापाल	सिग्नल्स
आई सी-42893	कर्नल	निसार अहमद सीथी	एएससी
आई सी-43078	कर्नल	संजीव दूबे	एएससी
आई सी-43136	कर्नल	सुरेन्द्र सिंह राठौर	इन्फैन्ट्री
आई सी-45451	कर्नल	आर रथीश नायर	आर्टी
आई सी-45535	कर्नल	सुनील प्रतापराव भोसले, एसएम	इन्फैन्ट्री
आई सी-45629	कर्नल	भरतीन्दर केसर	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-45979	कर्नल	अनिल कुमार शर्मा	इन्जीनियर्स
आई सी-48031	कर्नल	ललित नंदा	सिग्नल्स
आई सी-49375	कर्नल	कुलदीप सिंह गिल	सिग्नल्स
वी-00367	कर्नल	आनंद सैनी	आरवीसी
आई सी-40414	कर्नल (टी एस)	नीरज कुमार	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-40698	कर्नल (टी एस)	संजय कुमार दास पटनायक	इन्फैन्ट्री
आई सी-40997	कर्नल (टी एस)	राजेन्द्र कुमार गोविल	इन्फैन्ट्री
आई सी-41114	कर्नल (टी एस)	सूर्य कांत मिश्रा	इन्फैन्ट्री
आई सी-41265	कर्नल (टी एस)	खान महमूद	एसी
आई सी-41290	कर्नल (टी एस)	दूर्गा शंकर शुक्ला	इन्फैन्ट्री
आई सी-41349	कर्नल (टी एस)	वी एच हरीश	सिग्नल्स

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-41410	कर्नल (टी एस)	संजीव कुमार वार्षनेय	आर्टी
आई सी-41794	कर्नल (टी एस)	अनुज कुमार माथुर	एएससी
आई सी-42157	कर्नल (टी एस)	आर रवि नारायणन	एएडी
आई सी-42434	कर्नल (टी एस)	दौलत सिंह बैसला	एओसी
आई सी-42467	कर्नल (टी एस)	पुनीत सहगल	एसी
आई सी-42484	कर्नल (टी एस)	राकेश कक्कर	सिग्नल्स
आई सी-42532	कर्नल (टी एस)	वेंकट सुब्बाराया प्रभाकर	इन्जीनियर्स
आई सी-42639	कर्नल (टी एस)	आर राजेन्द्रन	इन्फैन्ट्री
आई सी-42913	कर्नल (टी एस)	सुशील गुरुंग	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-43023	कर्नल (टी एस)	गुर अवतार सिंह	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-43039	कर्नल (टी एस)	अनंथा कृष्णन रामानाथन	इन्फैन्ट्री
आई सी-43043	कर्नल (टी एस)	सुनील कुमार कटयाल	सिग्नल्स
आई सी-43137	कर्नल (टी एस)	संजय रावत	एएससी
आई सी-44168	कर्नल (टी एस)	अशोक कुमार अधिकारी	आर्टी
आई सी-44337	कर्नल (टी एस)	मनोज भारद्वाज	इन्फैन्ट्री
आई सी-44682	कर्नल (टी एस)	सिद्धार्थ	इन्फैन्ट्री
आई सी-44849	कर्नल (टी एस)	संजय कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
आई सी-45516	कर्नल (टी एस)	इफतेखार अली खान	आर्टी
आई सी-45553	कर्नल (टी एस)	करमजीत सिंह बाजवा	सिग्नल्स
आई सी-45568	कर्नल (टी एस)	मैक्सुअल रोबर्ट्स	इन्फैन्ट्री
आई सी-45581	कर्नल (टी एस)	राजेश कुमार मिश्रा	इन्फैन्ट्री
आई सी-45728	कर्नल (टी एस)	अनिल दास	इन्फैन्ट्री
आई सी-45899	कर्नल (टी एस)	फतेन्द्र सिंह भदोरिया	एओसी
आई सी-45962	कर्नल (टी एस)	राजेश कुमार गिरोती	आर्टी
आई सी-45991	कर्नल (टी एस)	विरिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
आई सी-46003	कर्नल (टी एस)	ओम प्रकाश फारसवां	इन्जीनियर्स
आई सी-46076	कर्नल (टी एस)	दीप चंद डागर	एओसी
आई सी-46150	कर्नल (टी एस)	अवतार सिंह पवार	ईएमई
आई सी-47823	कर्नल (टी एस)	विजय कुमार	एओसी
आई सी-48008	कर्नल (टी एस)	राम बिहारी सिंह	इन्जीनियर्स
आई सी-48468	कर्नल (टी एस)	लव कुमार शर्मा	इन्जीनियर्स
आई सी-49371	कर्नल (टी एस)	राघवेन्द्र नाथ मौर्या	सिग्नल्स
आई सी-49125	ले कर्नल	देविन्दर सिंह	आर्टी
आई सी-49702	ले कर्नल	करण सिंह	इन्फैन्ट्री
आई सी-51008	ले कर्नल	अचिंत्या कुमार नंदी	इन्फैन्ट्री
आई सी-51614	ले कर्नल	कुलबीर सिंह	इन्फैन्ट्री
आई सी-51688	ले कर्नल	केतन बहादुर थापा	इन्फैन्ट्री
एस एल-03954	कर्नल	श्याम सिंह चंदेल	एस एल क्यूएम
एस एल-04383	ले कर्नल	जी दामोदरन	एस एल ईआर/टीईओ

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
एस एल-04415	ले कर्नल	किशोर कुमार विसोयी	एस एल क्यूएम
एस एल-04485	ले कर्नल	गोविंद राम शर्मा	एस एल आरओ
एस एल-04550	ले कर्नल	सोमबीर सिंह मान	एस एल एपीटीसी
एस एल-04563	ले कर्नल	प्रभु दयाल खेरवा	एस एल एपीटीसी
एस एल-04564	ले कर्नल	बलदेव सिंह	एस एल साईफर
एस एल-04565	ले कर्नल	बलवान सिंह	एस एल साईफर
एस सी-00003	ले कर्नल	ओम प्रकाश	इन्फैन्ट्री
एस सी-00127	ले कर्नल	मान सिंह जाबल	इन्फैन्ट्री

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 जुलाई 2016 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना स्थायी कमीशन

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-40709	कर्नल	अजय अहलुवालिया	इन्जीनियर्स
आई सी-40742	कर्नल	विजय रावत	ईएमई
आई सी-40813	कर्नल	मनदीप सिंह	एएडी
आई सी-41113	कर्नल	पद्मलोचन बर्मन	इन्फैन्ट्री(राज. राईफल्स)
आई सी-41603	कर्नल	बिजू एम थॉमस	आर्टी
आई सी-41664	कर्नल	रमिन्दर चिमनी	एसी
आई सी-41820	कर्नल	राजेन्द्र कुमार जोशी	सिग्नल्स
आई सी-41949	कर्नल	रिष मेहता	एसी
आई सी-42037	कर्नल	सती राजू श्रीराम	आर्टी
आई सी-42068	कर्नल	कोमारनेनी बापियाह चौधरी	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-42098	कर्नल	राजेन्द्र सिंह राठौर	आर्टी
आई सी-42133	कर्नल	कोली जगन मोहन रॉय	इन्फैन्ट्री(सिख ली)
आई सी-42290	कर्नल	आनंद सिंह राठौर	एओसी
आई सी-42471	कर्नल	जयंत मिश्रा	ईएमई
आई सी-42572	कर्नल	भानु प्रताप शाही	आर्टी
आई सी-44908	कर्नल	मुकेश कुमार शर्मा	इन्जीनियर्स
आई सी-45552	कर्नल	रणजीत सिंह	इन्फैन्ट्री(गार्ड्स)
आई सी-46205	कर्नल	राजेश कंवर	एओसी
आई सी-47924	कर्नल	केदार शुक्ला	एओसी
आई सी-48484	कर्नल	शाहिद शब्बार	ईएमई
आई सी-49031	कर्नल	निर्मल कुमार सिवच	एएससी
आई सी-41124	कर्नल (टी एस)	नरेश कुमार खट्टर	आर्टी
आई सी-41184	कर्नल (टी एस)	रमेश कुमार	एसी
आई सी-41588	कर्नल (टी एस)	बलविन्दर सिंह गिल	एएससी
आई सी-41590	कर्नल (टी एस)	हितेश चोपड़ा	एसी
आई सी-41640	कर्नल (टी एस)	कमल किशोर मिश्रा	इन्फैन्ट्री(महार)
आई सी-41658	कर्नल (टी एस)	जगवीर सिंह	इन्जीनियर्स

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-41689	कर्नल (टी एस)	कमल किशोर पंत	एओसी
आई सी-41968	कर्नल (टी एस)	दिलबाग सिंह मोर	आर्टी
आई सी-41992	कर्नल (टी एस)	रूपिन्दर पाल सिंह गिल	आर्टी
आई सी-42127	कर्नल (टी एस)	शाफत खान	ईएमई
आई सी-42203	कर्नल (टी एस)	विभूति भूषण भारती	एओसी
आई सी-42230	कर्नल (टी एस)	परम जोत सिंह	इन्जीनियर्स
आई सी-42355	कर्नल (टी एस)	रोनी साही	इन्फैन्ट्री(जैक ली)
आई सी-42620	कर्नल (टी एस)	दलविन्दर सिंह कटोच	इन्फैन्ट्री(जैक राईफल्स)
आई सी-42961	कर्नल (टी एस)	राजीव ठाकुर	एओसी
आई सी-43005	कर्नल (टी एस)	विश्वजीत सिन्हा	इन्फैन्ट्री(गरवाल राईफल्स)
आई सी-43030	कर्नल (टी एस)	राजीव धर	इन्फैन्ट्री(राज राईफल्स)
आई सी-43065	कर्नल (टी एस)	संजय कुमार गुप्ता	एओसी
आई सी-43120	कर्नल (टी एस)	बोस के जोसेफ	आर्टी
आई सी-43524	कर्नल (टी एस)	श्रीरंग धमांकर	आर्टी
आई सी-43527	कर्नल (टी एस)	गुरीनर सिंह जोसन	इन्फैन्ट्री(डोगरा)
आई सी-43564	कर्नल (टी एस)	अरविंद कोहली	इन्फैन्ट्री(3 जी आर)
आई सी-44377	कर्नल (टी एस)	अतुल चौधरी	आर्टी
आई सी-44417	कर्नल (टी एस)	राज कुमार दहिया	इन्फैन्ट्री(ग्रनेडियर्स)
आई सी-44462	कर्नल (टी एस)	रविन्दर प्रकाश भटनागर	सिग्नल्स
आई सी-44714	कर्नल (टी एस)	शैलेश जौहरी	इन्जीनियर्स
आई सी-44951	कर्नल (टी एस)	गोपालकृष्णन नायर जी	इन्जीनियर्स
आई सी-45377	कर्नल (टी एस)	अमीत सिंह	एसी
आई सी-45461	कर्नल (टी एस)	जोगिन्दर सिंह राणा	आर्टी
आई सी-45464	कर्नल (टी एस)	सुनील कुमार गुप्ता	ईएमई
आई सी-45470	कर्नल (टी एस)	देसाई चन्द्रहास श्रीरंग	एएडी
आई सी-45518	कर्नल (टी एस)	अश्विनी सलारिया	एओसी
आई सी-45545	कर्नल (टी एस)	अरुण देव सिंह समयाल	इन्फैन्ट्री(सिख)
आई सी-45891	कर्नल (टी एस)	रुमेश यादव	आर्टी
आई सी-45984	कर्नल (टी एस)	राजीव मेहता	एएससी
आई सी-46072	कर्नल (टी एस)	इन्द्र कुमार लाल	एओसी
आई सी-47281	कर्नल (टी एस)	जसवंत सिंह	सिग्नल्स
आई सी-47429	कर्नल (टी एस)	सुशील एस कुलकर्णी	एओसी
आई सी-47555	कर्नल (टी एस)	संजय कुमार	इन्जीनियर्स
आई सी-47992	कर्नल (टी एस)	सुरेश कुमार गिगू	ईएमई
आई सी-41298	ले कर्नल	सागर मल	आर्टी
आई सी-50923	ले कर्नल	राधाकृष्णन वी पी	आर्टी
आई सी-51510	ले कर्नल	सोम राज	एओसी
आई सी-51621	ले कर्नल	डोगरा अजय सिंह पंजाब सिंह	ईएमई
एस एल-04340	ले कर्नल	सतबीर सिंह पुनिया	एस एल क्यूएम

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
एस एल-04384	ले कर्नल	विक्रम सिंह	एस एल टीईओ(एएडी)
एस एल-04554	ले कर्नल	विरीन्द्र सिंह	एस एल आरओ
एस एल-04622	ले कर्नल	हरेन्द्र सिंह	एस एल टीईओ(एएडी)
एस एल-05060	ले कर्नल	राजबीर सिंह	एस एल टीईओ(आर्टी)
एस एल-05078	ले कर्नल	प्रताप सिंह	एस एल साईफर
एस एल-05086	ले कर्नल	तारसेम चंद राणा	एस एल क्यूएम
एस सी-00200	ले कर्नल	उमा शंकर	इन्फैन्ट्री

सुभाष चन्द्र
उप निदेशक
एम एस-7ए

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th September 2017

ARMY BRANCH

No. 179, dated 7th July 2017— The President is pleased to make the following appointment :-

TERRITORIAL ARMY

To be Lieutenant

Ankit Sachan	TA-42965	(Engr TA)	19 Jan 2015
Deepak Kumar Nayak	TA-43065	(Engr TA)	16 Sep 2016
Pabitra Kumar Nayak	TA-43066	(Engr TA)	02 Jan 2017
Satish Chandra Prasad	TA-43067	(Engr TA)	09 Jan 2017

M P SINGH
Under Secy

AIR BRANCH

No. 180, dated 10th July 2017—The President is pleased to grant Permanent Commission (On Probation) to the undermentioned officers of 132 GDOC wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.INDIAN AIR FORCE
(ADMINISTRATIVE BRANCH)

Ex-Flt Cds to be Fg Offr

Fg Offr Pankaj Sharma (33241), Anirudh Srivastava (33258), wef 22 Jun 13

The President is pleased to grant Permanent Commission to the undermentioned officer in the rank of Fg Offr wef 06 Jan 14. The officer is granted ante-date w.e.f. 06 Jan 12.

INDIAN AIR FORCE
MECHANICAL BRANCH

Fg Offr Ajay Kumar Singh (33841) wef 06 Jan 14 ante-date w.e.f. 06 Jan 12

The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Wings to the undermentioned officers of 191 Pilot Course in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names, under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC(On Probation) & Wings i.e. 22 Jun 13.

INDIAN AIR FORCE
FLYING (PILOT) BRANCH

Ex Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Abhishek Gourav (33162), Ashutosh Pandey (33170), Singh Mandeep (33182), Jitendra Kumar (33194), Alok Kumar Mishra (33197), Vipul Gupta (33205), Mohit Rawat (33206), Himanshu Raj Singh (33210), Singh Ankur (33215), Sheikh Naieem Ur Rehman (33221) : wef 22 Jun 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned officers of 55 SSC(T) wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Sachin Sadanand Borkar (33389), Jasleen Kaur (33398), Nivedita Dogra (33401) : wef 01 Jul 13

Fg Offr Swati (33454): wef 08 Jul 13

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr M Manjusha (33402), Meenakshi Kumari (33417), Menakshi Malik (33447) : wef 01 Jul 13

Fg Offr Utsav Sharma (33453), Apoorva Sharma (33456): wef 08 Jul 13

The President is pleased to grant Short Service Commission (On Probation) to the undermentioned officers of 83 AEC in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Parab Vinod Suresh (33374), Vaibhav Gupta (33378) : wef 01 Jul 13

The President is pleased to terminate the Short Service Commission (on probation) granted to the undermentioned officers of 83 AEC and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Ajay Mohan (32979), Milind Garg (33017), Gaurav Singh Bandral (33022), Nirneet Chanoria (33028) Parab Vinod Suresh (33374), Vaibhav Gupta (33378) : wef 30 Jun 14

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers of 55 SSC(T) and grant them Short Service Commission (On probation) wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Sachin Sadanand Borkar (33389), Jasleen Kaur (33398), Nivedita Dogra (33401), Swati (33454) wef 30 Jun 14

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Matte Manjusha (33402), Meenakshi Kumari (33417), Menakshi Malik (33447), Utsav Sharma (33453), Apoorva Sharma (33456) wef 30 Jun 14

P S SURANGE
Wg Cdr
JDPO-3(D)

AIR BRANCH

No. 181, dated 11th July 2017—The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE
ADMINISTRATIVE BRANCH

Ex-Flt Cds to be Fg Offr

Fg Offr Sonika Pathania (33311), Pushpanjali (33320), wef 22 Jun 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers of 83 AEC (UES-2013) in the rank of Fg Offr wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/ 1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Israel Stephen Ulaganathan (33329), K Muthamil Selvan (33330), Lokesh Mehlan (33331), Michael Marydas (33332), Sumit Singh Sidhu (33333), Syed Salman N H (33334), Vivek Gopal (33335) : wef 01 Jul 13

Fg Offr Shyam Sunder Prabhu Sadanandan (33448), Midhun Harilal (33449) :wef 08 Jul 13

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Abhishek Kumar Singh (33342), Akash Kashyap (33343), Arnab Mukherjee (33344), Aryan Raj Chowdhary (33345), Brijesh Kumar Gupta (33346), Jerry K Siby (33347), Kandala Praveen Reddy (33348), Kaustubh Ganguly (33349), Mohammed Safeez Rahman (33350), Pallav Gupta (33351), Praful Gupta (33352), Prantik Guha (33353), Prateek Dutta (33354), Roychowdhury Abhishek (33355), Saket Jha (33356), Samridh Prabhakar (33357), Satyendra Shaw (33358), Shreeraj (33359), Saurabh Duggal (33360), Vikas Kumar (33361), Viveka Kamath Kundapura (33362) : wef 01 Jul 13

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers of 83 AEC (UES-2013) and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Israel Stephen Ulaganathan (33329), K Muthamil Selvan (33330), Lokesh Mehlan (33331), Michael Marydas (33332), Sumit Singh Sidhu (33333), Syed Salman N H (33334), Vivek Gopal (33335), Shyam Sunder Prabhu Sadanandan (33448), Midhun Harilal (33449) : wef 30 Jun 14

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Nishan Tiwari (32974), Abhishek Kumar Singh (33342), Akash Kashyap (33343), Arnab Mukherjee (33344), Aryan Raj Chowdhary (33345), Brijesh Kumar Gupta (33346), Jerry K Siby (33347), Kandala Praveen Reddy (33348), Kaustubh Ganguly (33349), Mohammed Safeez Rahman (33350), Pallav Gupta (33351), Praful Gupta (33352), Prantik Guha (33353), Prateek Dutta (33354), Roychowdhury Abhishek (33355), Saket Jha (33356), Samridh Prabhakar (33357), Satyendra Shaw (33358), Shreeraj (33359), Saurabh Duggal (33360), Vikas Kumar (33361), Viveka Kamath Kundapura (33362) : wef 30 Jun 14

D SHARMA

Wg Cdr

JDPO-3(D)

No. 182, dated 12th July 2017—The President is pleased to confirm the grant of Permanent Commission to the undermentioned officer of 187 Pilot Course, wef the date stated against his name:-

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr	Tejas Subhash Kawale	31742
---------	----------------------	-------

Confirmation Wef 18 Jun 2011.

The President is pleased to confirm the under mentioned officer who was granted Permanent Commission (on probation) wef 02 Jan 12. They are granted ante date wef 02 Jan 10

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

Fg Offr	MANOJ KUMAR	31630	AE(L)
---------	-------------	-------	-------

Confirmation Wef 02 Jan 12 and ante date 02 Jan 10

The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Permanent Commission, wef the date stated against their names:-

INDIAN AIR FORCE
ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Rajesh Ramachandran Pillai (32490), Deepak Kumar Mishra (32491) wef 30 Jun 12.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Daulat Ram (32492) wef 30 Jun 12.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Atam Parkash (32493) wef 30 Jun 12.

The President is pleased to confirm the undermentioned officers of 12 SEC (Non-Tech) Course who were granted Permanent Commission, wef the date stated against their names:-

INDIAN AIR FORCE
LOGISTICS BRANCH

Shiju Joseph	32890	w.e.f	15-DEC-12
--------------	-------	-------	-----------

EDUCATION BRANCH

Mohammad Shaji	32891	w.e.f	15-DEC-12
----------------	-------	-------	-----------

The President is pleased to confirm the undermentioned officers Of 83AEC who were granted Permanent Commission (on probation)wef 30 Jun 14. They are granted antedate wef 30 Jun 13 (for pay, seniority and promotion) :-

INDIAN AIR FORCE
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr S Shyam Sunder Prabhu (33448) Sumit Singh Sidhu (33333), Lokesh Mehlan (33331), Vivek Gopal (33335), Akash Kumar Sinha (33336),Bhattiprolu Sai Surya Praneeth (33337), Israel Stephen Ulagnathan (33329), K Muthamil Selvan (33330), Rishipal Singh Deora (33340), Sagar Avijeet Shukla (33341), Chirag Chugh (33338), Syed Salman NH (33334), N Mohamed Riyazudeen (33339), Midhun Harilal (33449), Michael Marydas (33332) : w.e.f. 30 Jun 14, Ante date wef 30 Jun 13

INDIAN AIR FORCE
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL) BRANCH

Fg Offr Kamalpreet Singh Maan (33371), Vatan Goyal (33379), Ashik Sageer (33366), Aryan Raj Chowdhary (33345), Saurabh Duggal (33360), Smridh Prabhakar (33357), Jilay Shravan Kumar (33370), Prafful Gupta(33352), Roychowdhury Abhishek (33355), Krishna Kant Issar (33383), Pranteek Guha (33353), Sanchit Kamra (33376), Gaurav Singh Bandral (33022), Vaibhav Gupta (33378), Akash Kashyap (33343), Prateek Dutta (33354), Saket Jha (33356), Nishan Tiwari (32974), Abhishek Kumar Singh (33364), Kandla Praveen Reddy (33348), Ankur Ahlawat (33365), Ajay Mohan (32979), Md Safeez Rahman (33350), Maninder Singh Bankura (33373), Kaushik Chakraborty (33363), Kaushtabh Ganguly (33349), Vinay Kumar (33380), Jerry K Siby (33347), Abhishek Kumar Singh (33342), Arnab Mukherjee (33344), Vinod Saurabh Pranab (33374), Prateek Kumar Singh (33375), Brijesh Kumar Gupta (33346), V Kumar (33361), Abhishek Kashyap (33381), Shreeraj (33359), Viveka Kamath Kundapura (33362), Gopal Shukla (33369), Pradeep R Parmar (33382), Satyender Shaw (33358), Pallav Gupta (33351), Bala Subramanayam Prabhakar (33368), Nirneet Chanoria (33028), Milind Garg (33017), Sandeep Kumar Yadav (33377) : w.e.f. 30 Jun 14, Ante date wef 30 Jun 13

The President is pleased to confirm the undermentioned officers granted Short Service Commission (on probation), wef the date stated against their names:-

INDIAN AIR FORCE
AERONAUTICAL ENGINEERING
(ELECTROINICS) BRANCH

Fg Offr	Ms Archana Kandasamy	31399	AE(L)
Fg Offr	Ms Rochna Sharma	31391	AE(L)

Confirmation wef 30 Jun 11.

The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Short Service Commission (on probation), wef the date stated below:-

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Anurag Tiwari (32027), Ashwita Gupta (31994), wef 07 Jan 13

The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Short Service Commission (on probation), wef the date stated below:-

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Zeeshan Arabi (32303), Avinash Samanta (32304), Dilip Kumar Narthu (32305), Parandaman Annadurai (32306), Piyush Bangarwa (32307), Anish Varghese Monci (32309), Chandan Kumar (32310), S Srinivasan (32311), Akshay Arun Gangwal (32312), Narendra Singh Bisht (32313), Ajesh S (32314), Vinith Kumar V (32315), Nitin Panwar (32316), Mukesh Kumar (32317), Rohit Kumar Singh (32318), Praveen Kumar (32319), Godwin JP (32320), Anjan Brahma (32321), Ishan Gulati (32322), Disha Tiwari (32331), Aarti Deshwal (32332), Michelle Swati Michael (32333), wef 07 Jan 13

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Sulabh Mahajan (32323), S Sankaran (32324), Vijay Patil (32325), Dheeraj Kumar Rathee (32327), Teja DVM (32328), Manoj M (32329), Ambar Srivastava (32330), Shruti Hans (32334), Pratima (32335), Simardeep Kaur (32336), Asmita Sahai (32337), Ketki Tol (32338), Someya Sharma (32339), Suman Sharma (32340), Preeti Sharma (32341), Apoorva Srivastava (32342), Akanksha Singh (32343), Vatsala Joshi (32344), Lalita Malik (32345), Ritika Tomar (32346), Prathama Takshak (32348), Shikha Chaudhary (32350), Shreeya Dadheech (32352), Shobhana Gupta (32353), Prerana (32354), Rajashree Hota (32355), Jeeja Abraham (32356), Apurva Prafulla Nandedkar (32357), Aishwarya Ajit Joshi (32358), Tarannum Bhutani (32359), Neha Upadhyay (32361), wef 07 Jan 13

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Harshad Kumar Chavda (32656), Priyank Singh (32657), Varun Shanbhag (32658), Sandeep Dhayal (32659), Himanshu Mishra (32660), Abhishek Ranjan (32661), Ishan Kinkhede (32662), Anil Raj (32663), Achyut Hanumath Sastry Challa (32664), Sukhbir Singh (32665), Suyash Parashar (32666), Kanav Upadhyay (32667), Hardeep Singh (32668), K Jaseem Abdulla (32669), Jyoti Sharma (32673), Swati Shukla (32699), Shivangi Sharma (32700), Balasubramanya Ananya (32701), Vishav Choudhary (32729), Amit Singh (32308), wef 08 Jul 13

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Shrish (32674), Ravikant Bhatt (32675), Sushant Bandhavakar (32676), Rahul Chauhan (32677), Nitish Ranjeet Gautam (32678), Sachin George Sam (32679), Tanveer Ahmed (32680), Mrinal J Baishya (32681), Yajuvendra Singh (32682), Sumit Sharma (32683), Sahil Bhota (32684), Sanjeev Kumar (32685), Harsh Premka (32686), Rajanvir Benipal (32687), Naresh Ayalasomayajula (32688), AV Karthik (32689), Anand Sutar (32690), Sebin Kottackal Kuriakose (32691), K Vijay Kumar (32692), Niraj Kumar (32693), Yash Srivastava (32695), Sandarsh Mehndiratta (32696), Vivek Patni (32697), Vaibhav Kumar (32698), Hemadri Bhatt (32702), Neha Yadav (32704), Anjali (32705), Sanju (32706), Cakkumnallore Veerappa Anila Rani (32707), Ansha Vayalumkal Thomas (32708), Preeti Suman Sahu (32709), Sashikala Seshadri Mythraye (32710), Megha Sood (32711), Shweta Sangwan (32712), Bhumika Sharma (32713), Vibhuti Mangal (32714), Apurva Tewari (32715), Isha Gill (32716), Ankush Sharma (32717), Aarushi Beri (32718) Fg Offr Kanishak Patial (32730), Shobhit Singh (32731), Ravi Kant (32732), Deepti Sharma (32347), Aparna Vyas (32349), Ravi Prakash Pandey (32326), Ashok Kumar (33124), Saurabh Dixit (33125), wef 08 Jul 13

The President is pleased to confirm the undermentioned officer of 38 SSC(W) Pilot Course who was granted Short Service Commission, wef the date stated against his name:-

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Kalyan Amardeep Kaur (33307), w.e.f. 22 Jun 13

PS SURANGE
Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No.183, dated 13th July 2017—The President is pleased to make the following promotions :

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj MF Khan	TA-42527	(Infantry)	01 May 2017
Maj HD Singh	TA-42529	(Infantry)	11 May 2017
Maj Anurag Shrivastava	TA-43004	(Infantry)	24 Jan 2017

To be Maj

Capt Prabhu Amit Chandrakant	TA-42731	(Infantry)	22 Mar 2017
------------------------------	----------	------------	-------------

To be Capt

Lt Himanshu Saxena	TA-42868	(Engineer TA)	01 Dec 2016
Lt Vikram Meena	TA-42869	(Engineer TA)	01 Dec 2016
Lt Sunil Kumar Ramchandani	TA-42870	(Engineer TA)	01 Dec 2016
Lt Kumar Alok	TA-42871	(Engineer TA)	01 Dec 2016
Lt Santosh Kumar Baranwal	TA-42872	(Engineer TA)	01 Dec 2016
Lt Ashish Marwaha	TA-42873	(Engineer TA)	24 Feb 2017
Lt Pankaj Kumar Gupta	TA-42874	(Engineer TA)	24 Feb 2017
Lt Sidharth Suresh	TA-42880	(Engineer TA)	01 Oct 2016
Lt Arockiya Antony S	TA-42881	(Engineer TA)	01 Oct 2016
Lt Naryana Bhaskar P	TA-42882	(Engineer TA)	01 Oct 2016

M P SINGH
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 184, dated 14th July 2017—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE SIKH REGIMENT

To be Subedar Major (GD)

Sub	Hira Singh	JC-499382H	01-10-2016
Sub	Dilbag Singh	JC-499633F	01-10-2016
Sub	Balwinder Singh	JC-499649M	01-10-2016
Sub	Rajinder Singh	JC-499692N	05-10-2016

Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances.

Sub	Balwinder Singh	JC-499699X	01-10-2016
Sub	Gurdip Singh	JC-499751P	01-10-2016
Sub	Tarsem Singh	JC-499752X	01-10-2016

To be Subedar (GD)

Nb Sub	Rajvinder Singh	JC-500806H	06-03-2016
--------	-----------------	------------	------------

Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2016 without effect on pay and allowances.

Nb Sub	Raj Singh	JC-500756H	26-09-2016
Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 14 Jul 2016 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Surinder Singh	JC-500528A	01-09-2016
Nb Sub	Baljit Singh	JC-500634Y	22-09-2016
Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2016 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Lakhwinder Singh	JC-500660A	01-09-2016
Nb Sub	Avtar Singh	JC-500798P	01-09-2016
Nb Sub	Jaswinderpal Singh	JC-500662L	01-10-2016
Nb Sub	Angrej Singh	JC-500664W	01-10-2016
Nb Sub	Rajinder Singh	JC-500673X	01-10-2016
Nb Sub	Bhag Singh	JC-500727N	01-10-2016
Nb Sub	Pargat Singh	JC-500730N	01-10-2016
Nb Sub	Jagdev Singh	JC-500747F	01-10-2016
Nb Sub	Mastan Singh	JC-500749M	01-10-2016
Nb Sub	Ravinder Singh	JC-500765K	01-10-2016
Nb Sub	Jaswinder Singh	JC-500767P	01-10-2016
Nb Sub	Raghubir Singh	JC-500771X	01-10-2016
Nb Sub	Mohar Singh	JC-500774L	01-10-2016
Nb Sub	Sukhdev Singh	JC-500788L	01-10-2016
Nb Sub	Gurmail Singh	JC-500810L	01-10-2016
Nb Sub	Harvinder Singh	JC-500813Y	01-10-2016
Nb Sub	Jaswinder Singh	JC-500841L	01-10-2016
Nb Sub	Jasmer Singh	JC-500844Y	01-10-2016
Nb Sub	Hardip Singh	JC-500866X	01-10-2016
Nb Sub	Kuljit Singh	JC-500871H	01-10-2016
Nb Sub	Sunit Singh	JC-500878M	01-10-2016
Nb Sub	Gurvinder Singh	JC-500879P	01-10-2016
Nb Sub	Kulwinder Singh	JC-500880K	01-10-2016
Nb Sub	Prem Singh	JC-500898A	01-10-2016

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Prem Chand	JC-522251M	1 st Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Jogender Paul	JC-521787W	24 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Chander Mohan	JC-522012X	27 th Nov 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Chaman Lal	JC-521716P	30 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 12 th Oct 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Balak Ram	JC-521924K	26 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Kunwar Pardeep Kumar	JC-521926P	29 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 16 without effect on Pay & Allowances)		

Nb Sub Rup Chand	JC-521933L	11 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Raj Kumar	JC-521906F	23 rd Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Surinder Singh	JC-522034W	5 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Deepak Kumar	JC-522081N	27 th Nov 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Anil Kumar	JC-521833A	31 st Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Gurdial Singh	JC-521834H	27 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Jagdev Singh	JC-521928A	24 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Nikka Ram	JC-522041M	19 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Jagdish Chand	JC-521976A	10 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 13 th Dec 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Prem Kumar	JC-521835L	27 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jan 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Anand Kashor Sharma, SM	JC-521879H	30 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jan 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Ramesh Kumar Mehla	JC-521887F	1 st Feb 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jan 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Chuni Lal	JC-522078N	10 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jan 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Jagdish Chand	JC-521932H	10 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Virender Singh, SM	JC-521711W	13 th Feb 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Pawan Kumar	JC-521908M	1 st Dec 16
Nb Sub Vijay Kumar	JC-521953Y	10 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Jalm Singh	JC-522094L	2 nd Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Udham Singh Rana	JC-522189L	10 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 16 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Raj Kumar	JC-521725W	1 st Jan 17
Nb Sub Joginder Paul	JC-521959A	18 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jan 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Sarwan Kumar	JC-522095N	2 nd Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jan 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Subhash Chand	JC-522096W	2 nd Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jan 17 without effect on Pay & Allowances)		
To be Sub (Religious Teacher)		
Nb Sub (RT) Chandra Prakash Tiwari	JC-520155Y	1 st Feb 17

To be Nb Sub

Hav Kewal Krishan	(3992155L Now JC-522492M)	12 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8 th Jun 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Balvinder Kumar	(3992251A Now JC-522493P)	3 rd Feb 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Pune Ram	(3992202X Now JC-522494X)	6 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajesh Kumar	(3994375N Now JC-522495A)	2 nd Feb 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Kumar	(3994444Y Now JC-522496H)	2 nd Feb 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Sunder Singh	(4363606W Now JC-522497L)	11 th Feb 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 2 nd Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Naresh Kumar	(3992841Y Now JC-522498N)	15 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 29 th Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Narinder Singh	(3992726Y Now JC-522499W)	11 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Sartaj Kumar	(3992744F Now JC-522500A)	9 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Piare Lal	(3992811F Now JC-522501H)	9 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Gagan Singh	(3992822N Now JC-522502L)	9 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Desh Raj Verma	(3992491X Now JC-522503N)	23 rd Feb 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Feb 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Kumar	(3993169X Now JC-522504W)	1 st Mar 17
Hav Nihal Singh	(3992731K Now JC-522505Y)	27 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Shyam Lal	(3993318A Now JC-522506F)	1 st Mar 17
Hav Vijay Kumar	(3992516Y Now JC-522507K)	1 st Mar 17
Hav Subhash Chander	(3994332Y Now JC-522508M)	21 st Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Kashmir Singh	(3994369A Now JC-522509P)	3 rd Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Parveen Kumar	(3992379L Now JC-522510K)	12 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Jiya Lal	(3993025P Now JC-522511M)	12 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Narpat Ram	(3992645Y Now JC-522512P)	27 th Mar 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Prem Singh	(3993998L Now JC-522513X)	11 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Gurdeep Kumar	(3994513K Now JC-522514A)	11 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Kamal Kumar	(3992844M Now JC-522515H)	1 st Mar 17

Hav Kuldeep Singh	(3994737K Now JC-522516L)	10 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Pawan Kumar	(3993381P Now JC-522517N)	7 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 16 th Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Sher Singh	(3992952W Now JC-522518W)	6 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Apr 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Varinder Kumar	(3993926F Now JC-522519Y)	5 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Apr 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Pushpinder Kumar	(3992906F Now JC-522520N)	12 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Apr 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Vijay Kumar	(3992870N Now JC-522521W)	12 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Apr 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Balbir Singh	(3992872Y Now JC-522522Y)	12 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Apr 17 without effect on pay and allowances)		
To be Nb Sub (Clerk SD)		
Hav (Clk SD) Manoj Kumar Newar	(3995705N Now JC-522523F)	1 st Mar 17
Hav (Clk SD) Brijesh Prasad Dwivedi	(3995814A Now JC-522524K)	1 st Apr 17
Hav (Clk SD) Chudasama Vanraj Sinh	(3996109N Now JC-522525M)	1 st Apr 17
Hav (Clk SD) Dalip Singh	(3996110H Now JC-522526P)	1 st Apr 17
To be Nb Sub		
Hav Ajay Kumar	(3992546W Now JC-522527X)	21 st Feb 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Bishan Dass	(3995369M Now JC-522528A)	10 th Feb 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 18 th Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Brikam Chand	(3992622X Now JC-522529H)	4 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30 th Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Avneesh Katoch	(3992167A Now JC-522530X)	13 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Vinod Dogra	(3993504W Now JC-522531A)	26 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 2 nd Apr 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Ashok Kumar	(3993111A Now JC-522532H)	5 th May 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 th Apr 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Pardeep Kumar	(3993729Y Now JC-522533L)	1 st May 17
Hav Raj Kumar	(3992890F Now JC-522534N)	1 st May 17
To be Nb Sub (Clerk SD)		
Hav (Clk SD) Baldev Singh	(3996111L Now JC-522535W)	1 st May 17
Hav (Clk SD) Chander Pal	(3996114Y Now JC-522536Y)	1 st Jun 17
Hav (Clk SD) Rajeev Kumar Chauhan	(3996192W Now JC-522537F)	1 st Jun 17
To be Nb Sub		
Hav Chhambu Ram	(3992932H Now JC-522449L)	27 th Nov 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Jarnail Singh	(3992487P Now JC-522450A)	24 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 16 without effect on pay and allowances)		

Hav Sushil Kumar	(3992943P Now JC-522451H)	27 th Nov 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Rashh Paul Singh	(3992970Y Now JC-522452L)	17 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Kumar	(3992096K Now JC-522453N)	6 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 12 th Oct 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Naresh Kumar	(3394705K Now JC-522454W)	26 th Nov 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 23 rd Oct 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Ravi Kumar	(3994166W Now JC-522455Y)	29 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 23 rd Oct 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Kewal Singh	(3992100F Now JC-522456F)	7 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Kishor Chand	(3992152X Now JC-522457K)	17 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Mohinder Singh	(3991643F Now JC-522458M)	3 rd Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Vinod Kumar	(3992961X Now JC-522459P)	28 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Sudesh Kumar Gudral	(3993403H Now JC-522460K)	29 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Sandeep Kumar	(3992696M Now JC-522461M)	24 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Karnail Singh	(3994206M Now JC-522462P)	3 rd Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Jagtar Singh	(3994316F Now JC-522463X)	3 rd Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Sanjay Kumar	(3992127Y Now JC-522464A)	11 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Madan Lal	(3993151F Now JC-522465H)	27 th Nov 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Balbir Singh	(3992920N Now JC-522466L)	27 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 14 th Nov 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Sohan Singh	(3992938K Now JC-522467N)	27 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Sukhwinder Singh	(3992738N Now JC-522468W)	24 th Dec 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Jagdish Lal	(3992433N Now JC-522469Y)	10 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 13 th Dec 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Parveen Kumar	(3993038M Now JC-522470N)	27 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Suneet Singh	(3993100N Now JC-522471W)	27 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Shyam Singh	(3992465W Now JC-522472Y)	10 th Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Jitender Kumar	(3994142M Now JC-522473F)	3 rd Jan 17*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 17 without effect on pay and allowances)		
Hav Bharat Bhushan	(3994494K Now JC-522474K)	1 st Jan 17

To be Nb Sub (Clerk SD)

Hav (Clk SD) Ram Singh Bhandari (3995674Y Now JC-522475M) 2nd Dec 16*
 *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 16 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Yogendra Prasad (3995689F Now JC-522476P) 1st Jan 17

THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar (GD/Clk)

Hav Ram Anup Pathak (No 4273771A now JC-561403Y) 25th Jan 2016/01st Dec 2015(S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Dec 2015 without effect on pay and allces.

Hav Xavier Tuti (No 4274346F now JC-561404F) 21st Jan 2016/01st Dec 2015(S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Dec 2015 without effect on pay and allces.

Hav Wilson Kerketta (No 4274486N now JC-561405K) 21st Jan 2016/01st Dec 2015(S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Dec 2015 without effect on pay and allces.

Hav Ashok Khalkho (No 4274312N now JC-561406M) 29th Jan 2016/06th Dec 2015(S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 06th Dec 2015 without effect on pay and allces.

Hav Mikkay Prasad (No 4274175A now JC-561407P) 21st Jan 2016/01st Jan 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jan 2016 without effect on pay and allces.

Hav Somanath Oraon (No 4274804M now JC-561408X) 21st Jan 2016/01st Jan 2016(S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jan 2016 without effect on pay and allces.

Hav Arvind Kumar (No 4276518K now JC-561409A) 25th Jan 2016/01st Jan 2016(S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jan 2016 without effect on pay and allces.

Hav Santosh Kumar Pandey (No 4271081X now JC-561410P) 01st Feb 2016/1st Feb 2016(S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016.

Hav Brij Bihari Singh (No 4271330L now JC-561411X) 01st Feb 2016/01st Feb 2016(S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016.

Hav Anem Kindo (No 4271724K now JC-561412A) 01st Feb 2016/01st Feb 2016(S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016.

Hav Manoj Kumar (No 4271708M now JC-561413H) 01st Feb 2016/01st Feb 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016.

Hav Yadu Nandan Kumar (No 4271758X now JC-561414L) 01th Feb 2016/01st Feb 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016.

Hav Sudhir Kachhap (No 4272346H now JC-561415N) 01st Feb 2016/01st Feb 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016.

Hav Sarbeswar Samal (No 4272532Y now JC-561416W) 01st Feb 2016/01st Feb 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016.

Hav Abhay Kumar Rai (No 4274161A now JC-561417Y) 12th Feb 2016/01st Feb 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016 without effect on pay and allces.

Hav Nitesh Kumar (No 4274623F now JC-561418F) 01st Feb 2016/01st Feb 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016.

Hav Karam Chand Bhagat (No 4272768N now JC-561419K) 23rd Feb 2016/02nd Feb 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 02nd Feb 2016 without effect on pay and allces.

Hav Haripal (No 4274840N now JC-561420Y) 08th Feb 2016/01st Feb 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016 without effect on pay and allces.

Hav Nawin Kumar (No 4274196N now JC-561421F) 01st Feb 2016/01st Feb 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016.

Hav Dalu Oraon (No 4274087K now JC-561422K) 22nd Feb 2016/01st Feb 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2016 without effect on pay and allces.

Hav Budhu Indwar (No 4274060M now JC-561423M) 13th Feb 2016/01st Jan 2016 (S)*
 * Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jan 2016 without effect on pay and allces.

Hav Manoj Kumar	(No 4272457A now JC-561424P)	04 th Feb 2016 /01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Ramray Hembrom	(No 4274808H now JC-561425X)	13 th Feb 2016 /01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Roshan Kumar	(No 4274662A now JC-561426P)	08 th Feb 2016 / 01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Manoj Kumar	(No 4274048L now JC-561427H)	08 th Feb 2016 /01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Dhum Singh Chauhan	(No 4274467H now JC-561428L)	08 th Feb 2016 /01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Lok Nath Pradhan	(No 4273514H now JC-561429N)	06 th Feb 2016 /01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Prakash Kujur	(No 4271813A now JC-561430H)	23 rd Feb 2016 /01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Anil Kumar Kerketta	(No 4272668H now JC-561431L)	18 th Feb 2016 /01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Ashani Kumar Nayak	(No 4273940W now JC-561432N)	20 th Jan 2016 /01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Dinesh Kumar Singh	(No 4270994M now JC-561433W)	06 th Feb 2016 /01 st Dec 2015 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Dec 2015 without effect on pay and allces.		
Hav Basant Oraon	(No 4274069F now JC-561434Y)	08 th Feb 2016/01 st Dec 2015 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Dec 2015 without effect on pay and allces.		
Hav Sunil Kachhap	(No 4274068Y now JC-561435F)	04 th Feb 2016 /01 st Nov 2015 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Nov 2015 without effect on pay and allces.		
Hav Laxman Naik	(No 4273313K now JC-561436K)	04 th Feb 2016 /01 st Nov 2015 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Nov 2015 without effect on pay and allces.		
Hav Saket Kumar Singh	(No 4273791N now JC-561437M)	14 th Jan 2016 /01 st October 2015 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st October 2015 without effect on pay and allces.		
Hav Philip Horo	(No 4271529M now JC-561438P)	22 nd Feb 2016 /09 th Sep 2015 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 09 th Sep 2015 without effect on pay and allces.		
Hav Raju Singh Kachwaha	(No 4271961M now JC-561439X)	03 rd Feb 2016/01 th Dec 2015(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Dec 2015 without effect on pay and allces.		
Hav Dharendra Kumar Thakur	(No 4272057N now JC-561440M)	03 rd Feb 2016/01 st Dec 2015(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Dec 2015 without effect on pay and allces.		
Hav Manvendra Kumar Choubey	(No 4271938A now JC-561441P)	03 rd Feb 2016/01 st Dec 2015(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Dec 2015 without effect on pay and allces.		
Hav Mayadhar Pradhan	(No 4275610W now JC-561442X)	04 th Mar 2016/01 st Dec 2015(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Dec 2015 without effect on pay and allces.		
Hav Ram Pratap Singh	(No 4271272M now JC-561443A)	18 th Feb 2016/01 st Jan 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Chhakkan Lal Mahto	(No 4275068L now JC-561444H)	22 nd Feb 2016/01 st Feb 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Feb 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Sukra Oraon	(No 4273549Y now JC-561445L)	29 th Feb 2016/01 st Feb 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Feb 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Ravindra Kumar Singh	(No 4271700A now JC-561447W)	08 th Mar 2016/01 st Mar 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Mar 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Sanjay Shukla	(No 4274919A now JC-561447W)	01 st Mar 2016/01 st Mar 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Mar 2016.		

Hav Jai Mangal Oraon	(No 4275113M now JC-561448Y)	03 rd Mar 2016 /01 st Mar 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Mar 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Tirath Munda	(No 4272364L now JC-561449F)	01 st Mar 2016/01 st Mar 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Mar 2016.		
Hav Permeshwar Oraon	(No 4271723F now JC-JC561450W)	01 st Mar 2016/01 st Mar 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Mar 2016.		
Hav Manoj Kumar Singh	(No 4277512Y now JC-561451Y)	01 st Mar 2016/01 st Mar 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Mar 2016.		
Hav Rajesh Kumar Singh	(No 4273726N now JC-561452F)	17 th Mar 2016/01 st Mar 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Mar 2016 without effect on pay and allces.		
CHM Dhaneshwar Oraon	(No 4271865Y now JC-561453K)	01 st April 2016/01 st April 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st April 2016.		
CHM George Ekka	(No 4271928W now JC-561454M)	01 th April 2016/01 st April 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st April 2016.		
Hav Kamla Kant Dash	(No 4272574L now JC-561455P)	02 nd April 2016/01 st Mar 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Mar 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Raj Kumar Singh	(No 4272199L now JC-561456X)	01 st April 2016/01 st Mar 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Mar 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Sukhdeo Oraon	(No 4272865L now JC-561457A)	22 nd Mar 2016/01 st Feb 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Feb 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Jay Prakash Singh	(No 4271994Y now JC-561458H)	09 th April 2016/ 01 st Feb 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Feb 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Netra Lal Singh	(No 4271510N now JC-561454L)	01 st April 2016/01 st Feb 2016(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Feb 2016 without effect on pay and allces.		
Hav Israil Sinku	(No 4274553N now JC-561460A)	07 th April 2016/01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces		
Hav Prem Singh Goyal	(No 4272082M now JC-561461H)	09 th April 2016/01 st Jan 2016 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st Jan 2016 without effect on pay and allces		
Hav Arun Kumar Singh	(No 4271045M now JC-561462L)	21 st Mar 2016/03 rd Dec 2015 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03 rd Dec 2015 without effect on pay and allces		

THE SIKH REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav	Harbhal Singh	(3396086A now JC-501278W)	26-09-2016
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jul 2016 without effect on pay and allowances.			
Hav	Jagdish Singh	(3397741A now JC-501279Y)	01-10-2016
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Aug 2016 without effect on pay and allowances.			
Hav	Nirmal Singh	(3395555L now JC-501280N)	01-09-2016
Hav	Narinder Singh	(3396328X now JC-501281W)	01-09-2016
Hav	Malkit Singh	(3396167A now JC-501282Y)	01-09-2016
Hav	Gurbux Singh	(3396479Y now JC-501283F)	05-09-2016
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2016 without effect on pay and allowances.			
Hav	Jaswinder Singh	(3396779X now JC-501284K)	05-09-2016
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2016 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk	Thakur Tejvir Singh	(3396863X now JC-501285M)	16-09-2016
Hav	Sukhchain Singh	(3394505N now JC-501286P)	01-10-2016

Hav	Amarjit Singh	(3395459W now JC-501287X)	01-10-2016
Hav	Paramjit Singh	(3394842H now JC-501288A)	01-10-2016
Hav	Sukhwinder Singh	(3400417W now JC-501289H)	01-10-2016
Hav	Tarsem Singh	(3396585P now JC-501290X)	01-10-2016
Hav	Kulwinder Singh	(3396592L now JC-501291A)	01-10-2016
Hav	Gurjit Singh	(3395019H now JC-501292H)	01-10-2016
Hav	Parmjit Singh	(3395082X now JC-501293L)	01-10-2016
Hav	Sukhwinder Singh	(3396605X now JC-501294N)	01-10-2016
Hav	Narinder Singh	(3396279A now JC-501295W)	01-10-2016
Hav	Sulakhan Singh	(3397529H now JC-501296Y)	01-10-2016
Hav	Ranjit Singh	(3398045P now JC-501297F)	01-10-2016
Hav	Sukhvinder Singh	(3398410L now JC-501298K)	01-10-2016

THE MARATHA LI

To be Nb Sub (GD)

Hav	Ekanath Patil	(No 2792179P now JC-460855A)	27 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Apr 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Satish Kumar	(No 2789581N now JC-460856H)	20 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26 Apr 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Sayaji Patil	(No 2789699P now JC-460857L)	20 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26 Apr 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Mhasal Ashok Shaligram	(No 2789733K now JC-460858N)	20 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26 Apr 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Jagtap Anil Sambhaji	(No 2790624K now JC-460859W)	01 Jun 2014
Hav	Basavaraj Tambulgunde	(No 2795520M now JC-460860L)	01 Sep 2014
Hav	Martin D' Souza	(No 2788403Y now JC-460863Y)	01 Oct 2014
Hav	Nikam Bhausahab Jayaram	(No 2789327K now JC-460864F)	12 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Walhekar Rajendra Shankar	(No 2789942F now JC-460865K)	12 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Chaugule Yashawant Namdev	(No 2791734L now JC-460866M)	01 Oct 2014
Hav	Pawar Tanaji Shamrao	(No 2791402F now JC-460867P)	01 Oct 2014
Hav	Patil Tukaram Ramchandra	(No 2791384K now JC-460868X)	01 Nov 2014
Hav	Kumkar Prabhakar Shritang	(No 2789640P now JC-460869A)	21 Nov 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ghogare Bandu Gajendra	(No 13757868L now JC-460870P)	01 Nov 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 25 Aug 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Bamuche Ganpati Rukamana	(No 2791206F now JC-460871X)	17 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Yadav Annasaheb Trimbak	(No 2791838M now JC-460872A)	01 Nov 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 20 Sep 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Takat Ganpat Prabhu	(No 2788469P now JC-460873H)	10 Nov 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances.			

Hav	Chavan Ankush Ram	(No 2789379A now JC-460875N)	25 Nov 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Gawade Suryaba Mahadev	(No 2790893W now JC-460876W)	12 Nov 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Waskar Sanjay Pundalik	(No 2791355P now JC-460877Y)	12 Nov 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Bhoite Madhukar Dattu	(No 2790582H now JC-460879K)	01 Dec 2014
Hav	Bankar Sanjay Shankar	(No 2789717M now JC-460880Y)	01 Dec 2014
Hav	Gunjawale Pramod Baban	(No 2789694W now JC-460881F)	05 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 27 Apr 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Chavan Vijay Shankar	(No 2790517H now JC-460882K)	24 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Sarode Ambadas Annasaheb	(No 2793563H now JC-460883M)	01 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Patil Namadeo Shripati	(No 2790584N now JC-460884P)	23 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Oct 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Shetye Deepak Sakharam	(No 2790014X now JC-460885X)	12 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26 Oct 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Kadam Yashwant Kashiram	(No 2789253A now JC-460886A)	15 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 27 Oct 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Gavas Sadanand Ramchandra	(No 2788993H now JC-460887H)	16 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ghadge Ramdas Shamrao	(No 2791391A now JC-460888L)	01 Nov 2014
Hav	Sham	(No 2789662N now JC-460889N)	30 Nov 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ghule Popat Jaywant	(No 2792484F now JC-460890H)	02 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Kutubuddeen Vakkund	(No 2792716P now JC-460891L)	22 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Shinde Auodumbar Rangrao	(No 2789493X now JC-460892N)	08 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 21 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Paradhi Namdev Soma	(No 13619026F now JC-460893W)	08 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 21 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Madhu Patil	(No 2789287N now JC-460895F)	24 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ruikar Rustam Nanasaheb	(No 2791612F now JC-460896K)	08 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Uttam Kowadkar	(No 2793778F now JC-460897M)	18 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Sakunde Santosh Zunjarrao	(No 2794932F now JC-460898P)	26 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			

Hav	S Dadapeer	(No 2794656K now JC-460899K)	17 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Gole Vikas Vittal	(No 2796468F now JC-460900F)	27 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Pawar Rakesh Vittal	(No 2793060X now JC-460901K)	18 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Chavan Mangesh Janardhan	(No 2790215W now JC-460902M)	12 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ganpat Belgaonkar	(No 2792600Y now JC-460903P)	23 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Mane Mangesh Vithal	(No 2805501X now JC-460905A)	16 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances.			
Hav	Dayanand Nesarikar	(No 2791995Y now JC-460906H)	16 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances.			
Hav	Bagate Nandu Dhondiba	(No 2791192M now JC-460907L)	01 Jan 2015
Hav	Suresh Kumar R	(No 2790295Y now JC-460908N)	01 Jan 2015
Hav	Ashok Satpalkar	(No 2790464P now JC-460909W)	06 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances.			
Hav	Mokase Narayan Fakirrao	(No 2790799M now JC-460910L)	06 Feb 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Borase Nilesh Umarao	(No 2791594K now JC-460911N)	27 Dec 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Palav Chandrakant Tukaram	(No 2790681L now JC-460912W)	18 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Salunkhe Suresh Govind	(No 2788796A now JC-460913Y)	06 Feb 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ravasaheb Kolekar	(No 2791733H now JC-460914F)	02 Feb 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk (SD)	Madagala Koteswara Rao	(No 2788661Y now JC-460861N)	01 Oct 2014
Hav Clk (SD)	Sanjay Kumar Halder	(No 2786855H now JC-460862W)	01 Oct 2014
Hav Clk (SD)	Patil Netaji Vishwas	(No 2788731M now JC-460874L)	28 Nov 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) with effect from 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav Clk (SD)	Omase Sauba Maruti	(No 2886608K now JC-460878F)	01 Dec 2014
Hav Clk (SD)	Jagmohan Singh	(No 2789045L now JC-460894Y)	01 Jan 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) with effect from 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav Clk (SD)	Rajesh Kumar	(No 2790146L now JC-460904X)	01 Jan 2015

T.D. PRASHANTH RAO
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 185, Dated 17th July 2017—The President is pleased to make the following promotions:-

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

To be Nb Sub SKT

Muthuramalingam G	(14615607X now JC-773817F)	01 Feb 2017
Krishan Singh	(14615888Y now JC-773816Y)	01 Feb 2017
Jagan Kumar	(14615970N now JC-773811A)	01 Feb 2017
Bhageshwar Singh	(14615973F now JC-773814N)	01 Feb 2017
Rajesh Kumar Bohra	(14615555M now JC-773820F)	04 Feb 2017/01 Feb 2017
Anil Kumar KG	(14615876K now JC-773815W)	01 Feb 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub Auto Tec BV

Ghanshyam Singh	(14620401K now JC-773789A)	01 Feb 2017
Suresh Kumar Sain	(14620406H now JC-773790P)	04 Feb 2017/01 Feb 2017
Keshab Tamuli	(14620463K now JC-773793H)	01 Feb 2017
Janagam Venkateshwarlu	(14620505L now JC-773796W)	01 Feb 2017
Dineshan Karakkeel	(14620507W now JC-773797Y)	01 Feb 2017
Ringshat Machahary	(14620879F now JC-773798F)	01 Feb 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub MTec NW

Shashi Bhushan PD Singh	(14657010W now JC-773784F)	01 Feb 2017
Baghel Bhupendara K P D	(14654016M now JC-773912N)	01 Feb 2017/24 Dec 2016

To be Nb Sub MTec Ele

Shamsher Singh	(14628424A now JC-773694A)	01 Feb 2017
Harbhan Singh	(14638155M now JC-773857H)	01 Feb 2017
Krishna Das MS	(14633303H now JC-773851F)	01 Feb 2017

To be Nb Sub MTec GUN

Pintu Das	(14627496X now JC-773834F)	01 Feb 2017
Pinkesh Kumar	(14626396L now JC-773832W)	01 Feb 2017
Salake Santosh Vitthal	(14631719F now JC-773835K)	04 Feb 2017/01 Feb 2017
Ashutosh Prasanna Sharma	(14626195F now JC-773831N)	01 Feb 2017
MD Johiruddin Babar	(14639086N now JC-773837P)	01 Feb 2017
P Yadhav	(14633282X now JC-773836M)	01 Feb 2017
Jawahar Lal Singh	(14626422W now JC-773833Y)	01 Feb 2017
Ajay Kumar	(14630317X now JC-773914Y)	04 Feb 2017/01 Feb 2017

To be Nb Sub MTec SA

Sukdev Paine	(14646096A now JC-773847Y)	01 Feb 2017
--------------	----------------------------	-------------

To be Nb Sub MTec A VEH

Shib Saran Mandal	(14634649Y now JC-773902K)	01 Feb 2017/21 Jan 2017
Hubbul Jamal	(14631246N now JC-773900Y)	01 Feb 2017/21 Jan 2017

	To be Nb Sub MTec B VEH	
Manoj Kumar Yadav	(14634966A now JC-773884M)	01 Feb 2017
A Ponnusamy	(14634279K now JC-773878Y)	01 Feb 2017
Om Prakash Saharan	(14635052H now JC-773907H)	06 Feb 2017/01 Feb 2017
	To be Nb Sub MTec COMN	
Susanta Kumar Pradhan	(14632847L now JC-773860H)	01 Feb 2017/07 Jan 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub Auto Ele BV	
Elesh Singh	(14619762W now JC-773909N)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub Tech RDR	
Sanjai S	(14626956F now JC-773785K)	01 Feb 2017
Gurmukh Singh	(14638287A now JC-773786M)	01 Feb 2017
	To be Nb Sub Arm TFD	
Bhikku Lal Inwati	(14642124K now JC-773787P)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub MTec A VEH	
Anil Kumar Sharma	(14625985K now JC-773899P)	01 Feb 2017/07 Jan 2017
Girish Chandra Bhatt	(14639905M now JC-773766Y)	01 Jan 2017
	To be Nb Sub Tech OPELE	
M Murugesan	(14637450H now JC-773843H)	01 Feb 2017
Prithwis Kumar Maity	(14642911L now JC-773845N)	01 Feb 2017
	To be Nb Sub MTec B VEH	
Saroj Kumar Singh	(14634212L now JC-773874H)	01 Feb 2017
Ashok Chalawadi	(14634277Y now JC-773877W)	01 Feb 2017
Parveen Thakur	(14627617N now JC-773893N)	01 Feb 2017
Ram Parvesh	(14634960Y now JC-773882F)	01 Feb 2017
Kamal Kishor	(14633577N now JC-773873A)	01 Feb 2017
Om Dev	(14634547H now JC-773880W)	02 Feb 2017/01 Feb 2017
	To be Nb Sub Mteccomm	
Shinde Vajjnath Bhau	(14632601M now JC-773840P)	01 Feb 2017
	To be Nb Sub MTec Ele	
Dharmvir Singh	(14633550W now JC-773852K)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub MTec Avn AE	
Amiya Kumar Sahoo	(14655458X now JC-773744A)	14 Jan 2017/01 Jan 2017
	To be Nb Sub MTec Avn AF	
Borse Machhindra Rangrao	(14643560N now JC-773823P)	01 Feb 2017

To be Nb Sub MTec Avn Ele		
Satish Kumar	(14657740F now JC-773824X)	01 Feb 2017
Baldev Prasad	(14635884K now JC-773861L)	01 Feb 2017
To Be Nb Sub MTec Avn IP		
Dike Anant Sakham	(14645717F now JC-773863W)	02 Feb 2017/01 Feb 2017
Kapil Kumar	(14650296N now JC-773864Y)	01 Feb 2017
To be Nb Sub MTec Avn CS		
Jadhav Sachin Balaso	(14660443Y now JC-773866K)	01 Feb 2017
J Chandra Mohan	(14643266N now JC-773862N)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub Dvr MT		
Mahipal Singh	(14619573M now JC-773494K)	02 Jan 2017/01 Jan 2017
Khajan Singh	(14619584Y now JC-773867M)	01 Feb 2017
Ashok Kumar Das	(14619594H now JC-773868P)	01 Feb 2017
Jagpal Singh Chahar	(14619561X now JC-773711P)	01 Feb 2017
Binod Kumar	(14619583W now JC-773712X)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub MTec COMN		
Rakesh Rammurti Singh	(14632605H now JC-773841X)	18 Feb 2017/01 Feb 2017
Jatinder Singh	(14636333L now JC-773474W)	10 Dec 2016/01 Mar 2017
Ranjith Kumar P V	(14632877H now JC-773993Y)	01 Mar 2017
To be Nb Sub MTec B VEH		
Vinod Kumar	(14634267P now JC-773875L)	01 Feb 2017
Arvind Kumar	(14635077P now JC-773885P)	20 Feb 2017/01 Feb 2017
To be Nb Sub MTec RDR		
Manoj Kumar	(14653838X now JC-773920M)	14 Feb 2017/04 Feb 2017
Deshbandhu Rai	(14652289H now JC-773916K)	18 Feb 2017 /04 Feb 2017
Suresh Mohanty	(14655609L now JC-773922X)	11 Feb 2017/04 Feb 2017
Avinash Kumar Mahto	(14657048A now JC-773924H)	16 Feb 2017/04 Feb 2017
Santosh Kumar Yadav	(14657710K now JC-773926N)	15 Feb 2017/04 Feb 2017
Manish Kumar	(14657893L now JC-773927W)	14 Feb 2017/04 Feb 2017
To be Nb Sub Mtec Ele		
Dillip Kumar Bisoyi	(14636311M now JC-773855X)	10 Feb 2017/01 Feb 2017
To be Nb Sub MTec NW		
Kunal Kapoor	(14657009F now JC-773783Y)	21 Feb 2017/01 Feb 2017
To be Nb Sub MTec GCE		
Rajesh Kumar	(14635622N now JC-774002M)	01 Mar 2017
* Gtd ante date seniority		

To be Nb Sub Tech SA

Sanjay Kumar Mandoli	(1464991F now JC-773802Y)	01 Feb 2017
Prabhat Kumar Ranjan	(14641873N now JC-773804K)	01 Feb 2017
Dheeraj Singh Chauhan	(14620301Y now JC-773813L)	01 Feb 2017
Narendra Kumar	(14642031P now JC-773803F)	01 Feb 2017
Chanderbhan Kumar Tiwari	(14620365K now JC-773807X)	01 Feb 2017
T Raju	(14642028P now JC-773805M)	04 Feb 2017/01 Feb 2017
Pramod \Kumar Singh	(14620356H now JC-773806P)	01 Feb 2017
Manoj Kumar	(14642666N now JC-773810X)	01 Feb 2017
S Sam Sunder Singh	(14641988F now JC-773809H)	01 Feb 2017
Jayananda Jana	(14639355P now JC-773808A)	01 Feb 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub OPdvr REC

Rakesh Kumar	(14685389F now JC-773910H)	01 Feb 2017
Dhayan Singh	(14657179L now JC-773911L)	01 Feb 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub MTec Avn AF

Arockia Raj TB	(14643264H now JC-773822M)	07 Feb 2017/01 Feb 2017
Dileswar Behera	(14643650P now JC-774029K)	17 Feb 2017/05 Feb 2017

To be Nb Sub MTec Avn AE

Justin Thiraviam A	(14656753M now JC-773865F)	04 Feb 2017/01 Feb 2017
--------------------	----------------------------	-------------------------

* Gtd ante date seniority

ANURAG SHARMA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 186, dated 18th July 2017—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire with permission to retain their rank and wearing of uniform :—

TERRITORIAL AMRY

RETIREMENT

Lt Col Sanjiv Misra	TA-42520	(Infantry)	30 Apr 2017
Lt Col Sunil Kumar	TA-42121	(Engr TA)	31 Jan 2017 (AN)

M P SINGH
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 187, the 19th July 2017—The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Apr 2016 :—

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
IC-41510	Col	Ramesh Kumar Dandriyal	Engrs
IC-41527	Col	Rajinder Singh Bhanwala	Engrs

IC-41701	Col	Ajay Gupta	Arty
IC-42420	Col	Jayachandran Nair	Inf
IC-45263	Col	Kulwant Singh Nagial	Engrs
IC-45391	Col	Neeraj Sharma	Mech Inf
IC-45540	Col	Rakesh Thakur	AC
IC-45824	Col	Rameshwar Sharma	Inf
IC-47071	Col	Kamal Singh Bhadwal	ASC
IC-47502	Col	Ashwani Kumar	EME
SL-03570	Col	Ashok Beedkar	SL
IC-40410	Col (TS)	Arvind Kumar Sinha, SC	Inf
IC-40453	Col (TS)	Ranjeet Singh	Inf
IC-40840	Col (TS)	Baljeet Singh	Inf
IC-40967	Col (TS)	Vivek Saran	Inf
IC-41269	Col (TS)	Sanjeev Tyagi	Inf
IC-41560	Col (TS)	Anupam Kumar Gupta	Inf
IC-41643	Col (TS)	Dapinder Singh Sandhu	Inf
IC-41700	Col (TS)	Debabrata Mishra	Arty
IC-42224	Col (TS)	Ajit Kumar Singh Chauhan	ASC
IC-42441	Col (TS)	Ravinder Singh Deswal	AOC
IC-42594	Col (TS)	Kaushalendra Kumar	Sigs
IC-42656	Col (TS)	Rajesh Kumar Shrivastava	Arty
IC-43134	Col (TS)	Sanjay Mathur	Arty
IC-44435	Col (TS)	Rajashekhar Harsoor	Engrs
IC-44461	Col (TS)	Anand Kumar Pandey	EME
IC-44824	Col (TS)	Ashesh Sunderlal	ASC
IC-44985	Col (TS)	Prakash Kumar MP	Engrs
IC-45276	Col (TS)	Vijay Kumar Dake	Arty
IC-45491	Col (TS)	Jagdeep Singh Lally	Arty
IC-45595	Col (TS)	Joshi Vivek J	AAD
IC-45601	Col (TS)	Pardeep Kumar	EME
IC-45647	Col (TS)	Alok Parmar	AC
IC-45667	Col (TS)	Jyoti Kumar Bose	INT
IC-45760	Col (TS)	Kalathil Dinesh	Inf
IC-45886	Col (TS)	Sainath Gopinath	EME
IC-45946	Col (TS)	Jagpal Singh Gill	Arty
IC-45960	Col (TS)	Sanjay Yadav	Arty
IC-47136	Col (TS)	Sandeep Kumar Ghosh	AOC
IC-47822	Col (TS)	Madhubal B	Sigs
IC-49683	Lt Col	Kuldip Singh	Inf
IC-50323	Lt Col	Govind Singh Tanwar	Inf
IC-50718	Lt Col	Dalbir Singh	AOC
IC-51266	Lt Col	Vijay Kumar Singh	AOC
IC-51333	Lt Col	Om Prakash Chauhan	Inf
IC-51644	Lt Col	Arun Kumar	EME

SL-04334	Lt Col	Suresh Singh Kalalia	SL QM
SL-05104	Lt Col	Narayanan Nair K	SL AE
SC-00133	Lt Col	Patric John	Sig
SC-00198	Lt Col	Gulshan Kumar Chona	Inf

The President is pleased to retire the under mentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 May 2016 :—

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
IC-40515	Col	Subodh Kumar	Inf(Kumaon)
IC-40798	Col	KPR Hari	Inf(Bihar)
IC-41923	Col	Umed Singh Mitharwal	ASC
IC-42999	Col	Harindra Tripathi	AOC
IC-43022	Col	Param Kripal Singh Bhatt	Inf(11 GR)
IC-44980	Col	G L Navarathna Keshav	Engrs
IC-45416	Col	Dinesh Alagh	ASC
IC-48021	Col	Basavaraj Patil	Engrs
SL-04178	Col	Ajit Singh	SL AE
IC-40481	Col (TS)	Surendra Kumar Singh	Mech Inf
IC-40604	Col (TS)	Murari Kumar	Inf(Madras)
IC-40831	Col (TS)	Faiz Ahmed Farooquee	Arty
IC-40883	Col (TS)	Babu Bhaskar Cherukat	Inf(Jak Rif)
IC-40935	Col (TS)	Ravindra Kumar Ravi	Inf(Grenadiers)
IC-40937	Col (TS)	Sudhakar Vasantrao Patil	Engrs
IC-40969	Col (TS)	Jawahar Mandal	Inf(Jak Rif)
IC-41092	Col (TS)	Rakesh Kapila	Engrs
IC-41227	Col (TS)	Sayaji J Khandait	Inf(Punjab)
IC-41343	Col (TS)	Kuldeep Sharma	Arty
IC-41561	Col (TS)	Kolasani Srinivas	EME
IC-41773	Col (TS)	Manmohan Singh Virk	Arty
IC-41811	Col (TS)	Satpal Sagwal	ASC
IC-42216	Col (TS)	Ravindra Kumar Sharma	ASC
IC-42672	Col (TS)	Prakash Anand Iyer	Mech Inf
IC-43076	Col (TS)	Devinder Pal Singh Sandhu	Mech Inf
IC-43085	Col (TS)	Surinder Singh Rana	Inf(Punjab)
IC-43098	Col (TS)	Pravir Kant Jha	Sigs
IC-43133	Col (TS)	Lokesh Sharma	AOC
IC-43146	Col (TS)	Rahul Jauhri	Mech Inf
IC-43151	Col (TS)	Gyanendra Pal Singh	AOC
IC-43635	Col (TS)	Vishweshwara Babu B S	Engrs
IC-44913	Col (TS)	Probhas Bose	EME
IC-44928	Col (TS)	Deepak Kumar Agrawal	Engrs
IC-44933	Col (TS)	Sanjeev Shankargouda Patil	Engrs
IC-44939	Col (TS)	Mohamed Rafiuddin	EME
IC-45392	Col (TS)	Anil Kumar Bakshi	AC

IC-45442	Col (TS)	Laxman Singh Bharat Singh Chauhan	AC
IC-45492	Col (TS)	Ajay Bir Singh Bhandari	Arty
IC-45519	Col (TS)	Chandra Kant Agarwal	Jag Dept
IC-45563	Col (TS)	P Narayan Menon	AC
IC-45660	Col (TS)	Anil Kumar Chauhan	AC
IC-45671	Col (TS)	Prashanta Kumar Das	Inf(Assam)
IC-45853	Col (TS)	Kuljeev Jaiswal	Arty
IC-45970	Col (TS)	Bhanu K George	EME
IC-46054	Col (TS)	Maulis Chandra	Engrs
IC-46099	Col (TS)	Jag Mohan Singh	Inf(Punjab)
IC-48942	Col (TS)	Koutharapu Srinivas	Sigs
IC-48944	Col (TS)	Manoj Kumar	Engrs
IC-48420	Lt Col	Naveen Kumar Bisaria	ASC
IC-49321	Lt Col	Manoranjan Prasad Singh	Arty
IC-50387	Lt Col	Narender Singh Negi	AOC
IC-50821	Lt Col	Yohannan KM	Arty
IC-51642	Lt Col	Navrattan Singh	Inf(Sikh Li)
IC-51778	Lt Col	Sudhir Kumar Chaudhry	Arty
IC-51785	Lt Col	Shinde Hariba Ranoba	Arty
SL-03899	Lt Col	Manmadhan Nair D	SL AE
SL-04100	Lt Col	Dev Giri	SL RO
SL-04135	Lt Col	M Mohan Prakash	SL ARCH
SL-04153	Lt Col	Manprit Singh	SL RO
SL-04160	Lt Col	Raj Bahadur Rana	SL QM
SL-04172	Lt Col	Mohanan M K	SL QM
SL-04183	Lt Col	Hanumant Sopanrao Bhosale	SL BR
SL-04208	Lt Col	C V Rajendra	SL ARCH
SL-04242	Lt Col	P Baskaran	SL QM
SL-04259	Lt Col	Surendra Singh Bisht	SL QM
SL-04287	Lt Col	K Pankajakshan	SL TEO(AAD)
SL-04332	Lt Col	Bonge Hari Laxman	SL Cipher
SL-04390	Lt Col	Shaji M Panikkar	SL QM
SL-04392	Lt Col	Pushparajan VP	SL QM
SL-04416	Lt Col	Prem Nath	SL QM
SL-05068	Lt Col	Radhey Shyam Singh Yadav	SL TEO(Arty)
SL-05077	Lt Col	Bachan Singh Chandel	SL AE
SL-05117	Lt Col	Rohtas Singh	SL TEO(Arty)
IC-40778	Col	Balbir Singh	Inf(Sikh Li)

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Jun 2016.

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
IC-40315	Col	Prem Prakash	Inf
IC-40335	Col	Ashun Bahl	Engrs

IC-41125	Col	Vivek Davar	Engrs
IC-41148	Col	Bharat Bhushan Pandey	AC
IC-41413	Col	Rohit Shukla	Arty
IC-41735	Col	Gurdeep Singh Bhandal	Sigs
IC-42229	Col	Rajiv Kumar Bhatli	Inf
IC-42579	Col	Ravi Prakash Tuteja	Inf
IC-42703	Col	Jag Mohan Durgapal	Sigs
IC-42893	Col	Nisar Ahmed Seethi	ASC
IC-43078	Col	Sanjeev Dubey	ASC
IC-43136	Col	Surendra Singh Rathore	Inf
IC-45451	Col	R Ratheesh Nair	Arty
IC-45535	Col	Sunil Prataprao Bhosle, SM	Inf
IC-45629	Col	Bhartinder Kesar	Mech Inf
IC-45979	Col	Anil Kumar Sharma	Engrs
IC-48031	Col	Lalit Nanda	Sigs
IC-49375	Col	Kuldeep Singh Gill	Sigs
V-00367	Col	Anand Saini	RVC
IC-40414	Col (TS)	Neeraj Kumar	Mech Inf
IC-40698	Col (TS)	Sanjay Kumar Das Patnaik	Inf
IC-40997	Col (TS)	Rajendra Kumar Govil	Inf
IC-41114	Col (TS)	Surya Kant Mishra	Inf
IC-41265	Col (TS)	Khan Mahmood	AC
IC-41290	Col (TS)	Durga Shanker Shukla	Inf
IC-41349	Col (TS)	V H Harish	Sigs
IC-41410	Col (TS)	Sanjeev Kumar Varshney	Arty
IC-41794	Col (TS)	Anuj Kumar Mathur	ASC
IC-42157	Col (TS)	R Ravi Narayanan	AAD
IC-42434	Col (TS)	Daulat Singh Bainsla	AOC
IC-42467	Col (TS)	Puneet Sehgal	AC
IC-42484	Col (TS)	Rakesh Kakar	Sigs
IC-42532	Col (TS)	Venkata Subbaraya Prabhakar	Engrs
IC-42639	Col (TS)	R Rajendran	Inf
IC-42913	Col (TS)	Sushil Gurung	Mech Inf
IC-43023	Col (TS)	Gur Aytar Singh	Mech Inf
IC-43039	Col (TS)	Anantha Krishnan Ramanathan	Inf
IC-43043	Col (TS)	Sunil Kumar Katyal	Sigs
IC-43137	Col (TS)	Sanjay Rawat	ASC
IC-44168	Col (TS)	Ashok Kumar Adhikari	Arty
IC-44337	Col (TS)	Manoj Bhardwaj	Inf
IC-44682	Col (TS)	Siddharth	Inf
IC-44849	Col (TS)	Sanjay Kumar Singh	Inf
IC-45516	Col (TS)	Eftekhar Ali Khan	Arty
IC-45553	Col (TS)	Karamjeet Singh Bajwa	Sigs

IC-45568	Col (TS)	Maxual Roberts	Inf
IC-45581	Col (TS)	Rajesh Kumar Mishra	Inf
IC-45728	Col (TS)	Anil Dass	Inf
IC-45899	Col (TS)	Fatendra Singh Bhadoria	AOC
IC-45962	Col (TS)	Rajesh Kumar Giroti	Arty
IC-45991	Col (TS)	Virinder Singh	Inf
IC-46003	Col (TS)	Om Prakash Pharswan	Engrs
IC-46076	Col (TS)	Deep Chand Dagar	AOC
IC-46150	Col (TS)	Awtar Singh Pawar	EME
IC-47823	Col (TS)	Vijay Kumar	AOC
IC-48008	Col (TS)	Ram Bihari Singh	Engrs
IC-48468	Col (TS)	Love Kumar Sharma	Engrs
IC-49371	Col (TS)	Raghavendra Nath Maurya	Sigs
IC-49125	Lt Col	Devinder Singh	Arty
IC-49702	Lt Col	Karan Singh	Inf
IC-51008	Lt Col	Achintya Kumar Nandi	Inf
IC-51614	Lt Col	Kulbir Singh	Int
IC-51688	Lt Col	Ketan Bahadur Thapa	Inf
SL-03954	Col	Shyam Singh Chandel	SL QM
SL-04383	Lt Col	G Dhamodaran	SL ER/TEO
SL-04415	Lt Col	Kishor Kumar Bisoyi	SL QM
SL-04485	Lt Col	Govind Ram Sharma	SL RO
SL-04550	Lt Col	Sombir Singh Maan	SL APTC
SL-04563	Lt Col	Prabhu Dayal Kherwa	SL APTC
SL-04564	Lt Col	Baldev Singh	SL Cipher
SL-04565	Lt Col	Balwan Singh	SL Cipher
SC-00003	Lt Col	Om Parkash	Inf
SC-00127	Lt Col	Man Singh Jabal	Inf

The President is pleased to retire the under mentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 July 2016.

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
IC-40709	Col	Ajay Ahluwalia	Engrs
IC-40742	Col	Vijay Rawat	EME
IC-40813	Col	Mandeep Singh	AAD
IC-41113	Col	Padmalochan Barman	Inf (Raj Rif)
IC-41603	Col	Biju M Thomas	Arty
IC-41664	Col	Raminder Chimni	AC
IC-41820	Col	Rajendra Kumar Joshi	Sigs
IC-41949	Col	Ris Mehta	AC
IC-42037	Col	Satti Raju Sriram	Arty
IC-42068	Col	Komarneni Bapaiah Choudhary	Mech Inf
IC-42098	Col	Rajendra Singh Rathore	Arty
IC-42133	Col	Kolli Jagan Mohan Roy	Inf (Sikh Li)

IC-42290	Col	Anand Singh Rathore	AOC
IC-42471	Col	Jayanta Misra	EME
IC-42572	Col	Bhanu Pratap Shahi	Arty
IC-44908	Col	Mukesh Kumar Sharma	Engrs
IC-45552	Col	Ranjit Singh	Inf (Guards)
IC-46205	Col	Rajesh Kanwar	AOC
IC-47924	Col	Kedar Shukla	AOC
IC-48484	Col	Shahid Shabbar	EME
IC-49031	Col	Nirmal Kumar Siwach	ASC
IC-41124	Col (TS)	Naresh Kumar Khatter	Arty
IC-41184	Col (TS)	Ramesh Kumar	AC
IC-41588	Col (TS)	Balwinder Singh Gill	ASC
IC-41590	Col (TS)	Hitesh Chopra	AC
IC-41640	Col (TS)	Kamal Kishore Mishra	Inf (Mahar)
IC-41658	Col (TS)	Jagveer Singh	Engrs
IC-41689	Col (TS)	Kamal Kishore Pant	AOC
IC-41968	Col (TS)	Dilbagh Singh Mor	Arty
IC-41992	Col (TS)	Rupinder Pal Singh Gill	Arty
IC-42127	Col (TS)	Shafat Khan	EME
IC-42203	Col (TS)	Vibhuti Bhushan Bharati	AOC
IC-42230	Col (TS)	Parm Jot Singh	Engrs
IC-42355	Col (TS)	Rony Sahi	Inf (Jak Li)
IC-42620	Col (TS)	Dalwinder Singh Katoch	Inf (Jak Rif)
IC-42961	Col (TS)	Rajive Thakur	AOC
IC-43005	Col (TS)	Biswajit Sinha	Inf (Garh Rif)
IC-43030	Col (TS)	Rajive Dhar	Inf (Raj Rif)
IC-43065	Col (TS)	Sanjay Kumar Gupta	AOC
IC-43120	Col (TS)	Bose K Joseph	Arty
IC-43524	Col (TS)	Srirang Dhamankar	Arty
IC-43527	Col (TS)	Guriner Singh Josan	Inf (Dogra)
IC-43564	Col (TS)	Arvind Kohli	Inf (3 GR)
IC-44377	Col (TS)	Atul Chaudhari	Arty
IC-44417	Col (TS)	Raj Kumar Dahiya	Inf (Grenadiers)
IC-44462	Col (TS)	Ravinder Parkash Bhatnagar	Sigs
IC-44714	Col (TS)	Sailesh Johari	Engrs
IC-44951	Col (TS)	Gopalakrishnan Nair G	Engrs
IC-45377	Col (TS)	Ameet Singh	AC
IC-45461	Col (TS)	Joginder Singh Rana	Arty
IC-45464	Col (TS)	Sunil Kumar Gupta	EME
IC-45470	Col (TS)	Desai Chandrahas Shrirang	AAD
IC-45518	Col (TS)	Ashwini Salaria	AOC
IC-45545	Col (TS)	Arun Dev Singh Samyal	Inf (Sikh)
IC-45891	Col (TS)	Rumesh Yadav	Arty

IC-45984	Col (TS)	Rajeev Mehta	ASC
IC-46072	Col (TS)	Indra Kumar Lal	AOC
IC-47281	Col (TS)	Jaswant Singh	Sigs
IC-47429	Col (TS)	Sushil S Kulkarni	AOC
IC-47555	Col (TS)	Sanjay Kumar	Engrs
IC-47992	Col (TS)	Suresh Kumar Gigoo	EME
IC-41298	Lt Col	Sagar Mal	Arty
IC-50923	Lt Col	Radhakrishnan VP	Arty
IC-51510	Lt Col	Som Raj	AOC
IC-51621	Lt Col	Dogra Ajay Singh Punjab Singh	EME
SL-04340	Lt Col	Satbir Singh Punia	SL QM
SL-04384	Lt Col	Vikram Singh	SL TEO (AAD)
SL-04554	Lt Col	Veerendra Singh	SL RO
SL-04622	Lt Col	Harendra Singh	SL TEO (AAD)
SL-05060	Lt Col	Rajbir Singh	SL TEO (Arty)
SL-05078	Lt Col	Pratap Singh	SL Cipher
SL-05086	Lt Col	Tarsem Chand Rana	SL QM
SC-00200	Lt Col	Uma Shankar	Inf

SUBHASH CHANDER
Dy Director, MS-7A

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

LAZAR

SAGAYA RAJ

Digitally signed by
LAZAR SAGAYA RAJ

Date: 2017.09.16
10:52:55 +05'30'